

PGIL/SE/2020-21/32

Date: October 27, 2020

THE GENERAL MANAGER, DEPARTMENT OF CORPORATE SERVICES - CRD BSE LIMITED 1ST FLOOR, NEW TRADING RING ROTUNDA BUILDING, P. J. TOWERS DALAL STREET, FORT, <u>MUMBAI - 400 001</u> THE GENERAL MANAGER, LISTING DEPARTMENT NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD. "EXCHANGE PLAZA", PLOT NO. C- 1, G- BLOCK, BANDRA - KURLA COMPLEX, BANDRA (E), <u>MUMBAI - 400 051</u>

Scrip Code: BSE-532808;

NSE - PGIL;

Dear Sir,

SUB: <u>Newspaper Advertisement for 31st Annual General Meeting (AGM) of the</u> <u>Company</u>

Pursuant to the Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circular), please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published today in the "Business Standard" English (All India Editions) and "Business Standard" Hindi (Delhi Edition), having electronic editions, intimating that 31st AGM of the Company will be held on Thursday, November 26, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means and other details as per MCA Circular.

The above is for your kind information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully, for **Pearl Global Industries Limited**

Jusen

(Sandeep Sabharwal) Company Secretary

Encl.: As above.

Pearl Global Industries Limited Corp. Office : Plot No. 51, Sector-32, Gurgaon-122001 Haryana (INDIA) Tel.: +91-124-4651000, Fax : +91-124-4651010. Website: www.pearlglobal.com CIN : L74899DL1989PLC036849 Regd. Office: A-3, Community Centre, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110028

4 COMPANIES

Automakers eye over

BP wants bigger pie of India fuel market, bats for gas under GST

Firm to create 80,000 jobs by increasing fuel retail outlets, along with Reliance, to 5,500 in 4-5 yrs

SHINE JACOB

New Delhi, 26 Octobe

lobal energy major BP Plc on Monday batted for natural gas' inclusion within the ambit of the goods and services tax (GST). Reiterating its commitment to the Indian market, the firm also said it would create 80,000 jobs here over the next four-five years.

Addressing the India Energy Forum meet by CERAWeek, the company's Chief Executive Officer Bernard Looney said, "GST has been a very welcome federal initiative to ease trade in India. We believe it would make sense to incorporate gas in that."

At present, petrol, diesel, jet fuel, crude oil, and natural gas fall outside GST's ambit. The Ministry of Petroleum and Natural Gas, too, has been batting for including natural gas under GST.

The company said it feels the government is committed to making it easier to do business in India. Looney also welcomed Prime Minister Narendra Modi's vision of shifting to a gas-based economy and indicated that steps like unifying pipeline tariff and setting up the first gas exchange are positive. India is looking to

"INDIA IS GOING TO BETHE FASTEST-GROWING MOBILITY AND FUELS MARKET FOR THE NEXT 20 YEARS" BERNARD LOONEY, CEO, BP PI

increase the share of natural gas in its energy mix from a mere 6 per cent to around 15 per cent in the next few years. The firm said it will create 80,000 jobs in India by increasing fuel retail outlets, along with Reliance, to 5,500 in four to five years.

Looney added that coal, which constituted over 50 per cent of the energy mix, will reduce to 40 per cent soon as the share of renewables and natural gas increases, which it expects to rise from around 20 per cent to 70 per cent by 2050.

Globally, BP is going through a transition, focusing on the resilient hydrocarbons business, low carbon electricity segment and convenience in mobility. Looney said India is a vital market for the company in all three segments. "In resilient hydrocarbons, we have a joint venture with Reliance Industries, in low carbon business, too, we have marked our presence and convenience in mobility India is going to be the fastestgrowing mobility and fuels market for the next 20 years," he said.

Echoing Looney, Total's CEO Patrick Pouyanné added that India is one of the largest markets for energy. He said the country has huge potential with a dynamic young population and the company is optimistic about its liquefied natural gas market. Pouyanné said the LNG market here is set to grow 5 per cent year in the coming years. He added that with the intention of growing here, the company has already bought a stake in Adani Gas and is well placed in the compressed natural gas, LNG, and renewables segments.

BID TO RAISE NATURAL GAS SHARE IN ENERGY BASKET FACES HURDLE

Tata exit: Mistry to file settlement terms in SC

DEV CHATTERJEE Mumbai, 26 October

Shapoorji Pallonji (SP) Group is all set to file its settlement terms with the Supreme Court (SC) by Tuesday. This will ultimately see the exit of the cashstrapped Pallonji Group from Tata Sons

With this, the hearing in the Tata versus Mistry case is likely to be adjourned to next month, said a source close to the development. "The settlement between Tata Group and SP Group is good news for both parties. The negotiations will now move towards the valuation of 18.4-per cent stake in Tata Sons," clarified a source.

The Mistrys have pegged the valuation of their stake in

Tata Group pegs the valuation far lower. "There is a possibility that the independent valuers for Tata Sons will be

appointed with the SC's conent," said the source. On October 10, Tata Group had said it had not received any formal request or proposal from SP Group on the settlement and said it would wait for

court proceedings to resume on October 28. "With the deadline inching closer, SP Group will file its settlement plans, offering its terms for settlement." added the source.

The settlement is important for SP Group, which has been facing unprecedented cash crunch due to slowdown in construction and real estate. The group companies, which

THE OFFER Mistrys to seek independent valuers

■ SP Group values | ■ Tata Group to its stake at respond in SC ₹1.78 trillion Settlement necessary for

SP Group to tide over cash crunch

loans, have filed for debt relief with their lenders, taking advantage of the Reserve Bank of India's norms on one-time debt restructuring.

The group earlier failed to raise funds from Canadian financial giant Brookfield by pledging Tata Sons shares after the latter moved SC blocking Tata Sons at ₹1.78 trillion, while have started defaulting on the pledging of Tata Sons'

fair, and equitable solution. The Mistrys said a separation from Tata Group was necessary due to the potential impact this litigation could have on the livelihood of its employees and on the economy. "It was crucial that an early resolution be reached to arrive at a fair and equitable solution reflecting the value of the underlying tangible and intangible assets," read the statement by SP Group. As the largest minority

shareholder, a role hitherto played by SP Group, it was always one of guardianship with the aim to protect the best interests of Tata Group. SP Group had always used its voting rights as a shareholder for the best interests of Tata Group, it had said.

P5

200K central govt staff to rev up festive sales SHALLY SETH MOHILE Mumbai, 26 October

Carmakers are targeting the over 200.000 central government employees as they may purchase cars to avail benefits of the leave travel concession (LTC) scheme announced by the government earlier this month.

"While not all those eligible for the scheme will end up purchasing a car, it's an opportunity for the marketers to tap into potential buyers, said Shashank Srivastava, executive director sales and marketing - Maruti Suzuki India.

Central government employees account for 7-8 per cent in Maruti's sales, he said. "Close to 220,000 employees are likely to purchase goods using the cash voucher scheme. This will also include those looking to buy a car," he said.

This number could get bigger if the state governments also announce a similar scheme. Delhi government The announced a similar scheme on Thursday to boost consumption and expenditure.

"It's a very good scheme and win-win for all. This (LTC) would have otherwise been foregone as no one wants to travel in this kind of an environment. One would see a surge in September and March as employees in the private sector will buy a car to claim depreciation benefit," said Naveen Soni, senior vice-president, sales and service, Toyota Kirloskar Motor.

Salaried employees would otherwise not be entitled to a tax benefit on capital goods purchase.

The very fact that it has come during the festive season when people are looking at buying a big-ticket item, is an added and are eligible to purchase



GEARING UP

Central govt employees account for 7-8 per cent of Maruti's customers

This number could get bigger if state govts announce a similar (LTC) scheme One would see a surge in

September and March as employees in the private sector will buy a car to claim depreciation benefit, says a Toyota Kirloskar Motor executive

benefit, he said. The compact car segment has been growing at a brisk pace month-onmonth. It advanced 36 per cent in September from 8 per cent in July and 27 per cent in August, he said.

The move comes amid the pandemic-induced restrictions on travel. It gives government employees an option to avail the cash equivalent of the entitled LTC fare and leave encashment. The quantum of benefit ranges from ₹36,000 to ₹174,000, depending on the employees' grade (see chart). This is inclusive of the entitlement for train or air fare and leave encashment. As part of the scheme, employees can "spend on something other than travel"

goods and services in lieu of the tax-exempt portion of the leave travel concession or leave travel allowances (LTC/LTA).

It only includes goods that attract more than 12 per cent GST. The government also announced a special festival advance scheme (of ₹10,000) for central government employees to stimulate consumer demand.

For a person wanting to buy a car, this is how the scheme works: A grade II employee in a family of four is entitled to a return air fare in economy class. The benefit will be close to ₹88,300 (air fare plus leave encashment). To avail of it, the person will have to spend thrice the entitlement. If he or she is purchasing a car that has an exshowroom price of ₹460,000, the person will get ₹88,300 as cashback from the employer. An employee is eligible for LTC and leave encashment of 10 days for travel to home town or any other destination twice in a block of four years.

Carmakers have come up with schemes to lure government employees. Maruti Suzuki has launched an offer for government employees with benefits up ₹11,000 over and above the ongoing festival consumer offers across its models. To help employees avail the government scheme, Toyota is providing easy buying and finance options.



Pursuant to the Code of Conduct of the Company maintained under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in securities of the Company has been closed since October 01, 2020 and shall be opened 48 hours after the announcement of the Financial Results. This intimation is also available on the website of the Company at www.orbitexports.com and on BSE website at

		ss for Corporate Persons) Regulations, 2016)
		NT PARTICULARS
	Name of the corporate debtor	AMW Autocomponent Ltd
	Date of incorporation of corporate debtor	16 June 2009
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies – Ahmedabad
4	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtors	U35923GJ2009PLC057269
5	Address of the registered office and principal	Registered Office: Bhachau Road, Near Village Kannaivabe,
-	office (if any) of corporate debtor	Bhuj – Kachchh, Gujarat – 370020
		Corporate Office: 1503, Lodha Supremus, Senapati Bapat Man
		Lower Parel, Mumbai - 400013
6	Insolvency commencement date of the	1st September 2020
•	corporate debtor	
7	Date of invitation of expression of interest	27th October 2020
	Eligibility for resolution applicants under	The detailed EOI and eligibility criteria are available on the webs
0	section 25(2)(h) of the Code is available at:	of the corporate debtor: www.armw-group.in
0		
9	Norms of ineligibility applicable under section	Available on the website of the corporate debtor:
10	29A are available at:	www.amw-group.in
	Last date for receipt of expression of interest	26th November 2020
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	3rd December 2020
12	Last date for submission of objections to provisional list	8th December 2020
13	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	18th December 2020
14	Date of issue of information memorandum.	8th December 2020
14		Gan Dought war 2020
	evaluation matrix and request for resolution	
45	plans to prospective resolution applicants	The Description Definitional shall show the degree of the state
15	Manner of obtaining request for resolution	The Resolution Professional shall share the documents through
	plan, evaluation matrix, information	e-mail or virtual data room after verification of KYC documents
	memorandum and further information	and eligibility criteria under section 29A of Insolvency and
		Bankruptcy Code, 2016 and prequalification criteria as approve
	2	by the Committee of Creditors.
	Last date for submission of resolution plans	7th January 2021
17	Manner of submitting resolution plans to	Via sealed envelope and E-mail, as mentioned in the request fo
	resolution professional	resolution plans.
18	Estimated date for submission of resolution	22nd February 2021
-	plan to the Adjudicating Authority for approval	
19	Name and registration number of the	Mr. Avil Menezes
	resolution professional	IP Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00017/2016-2017/10041
20	Name, Address and e-email of the resolution	Mr. Avil Menezes
20	professional, as registered with the Board	Address: 416, Crystal Paradise Co-op Soc. Ltd., Dattaji Salvi
	protosoiona, as togosciou with the Dodu	Marti, Above Pizza Express, Off Veera Desai Road, Andheri We
		Mumbai City, Maharashtra - 400053. Email ID: avi@caavil.com
-	Address and small to be used for	
21	Address and email to be used for	Address: 416, Crystal Paradise Co-op Soc. Ltd., Dattaji Salvi
	correspondence with the resolution	Marg, Above Pizza Express, Off Veera Desai Road, Andheri We
	professional	Mumbai City, Maharashtra - 400053
		Email ID: rpadvisors.aacl@in.ey.com
22	Further Details are available at or with	Mr. Avil Menezes
		Email ID: avil@caavil.com, Website: www.amw-group.in
23	Date of publication of Form G	27th October 2020
		For and on behalf of AMW Autocomponent Limit Avil Menaz Resolution Professio IP registration details as und 2017/10041 418, Crystal Paradise Co-op Soc. Ltd., Dat Veera Desai Road, Andheri West, Murnbai City, Maharashir

	on behalf of the C	1/13167/2020 Sovemor of Tamil Nadu, s	DU - AGRICULTURAL EI TENDER NOTICI sealed Tenders are invited from Manufacture sper the terms and conditions and detailed sp	E <u>Date: 2</u> rs or Sole Distributor by th	24.10.2020 ne Chief Engineer (AE), 487, Anna Salai,
SI. No.	Tender No.	Tei	nder for the supply of	EMD (Rs. in lakhs)	Cost of Tender documents (in Rs.)
1		4 Nos. of Air Compre	2550r	1.10	
2		20 Nos. of Tractor PTO Operated Pump 10 Nos. of Tractor Operated Plastic Mulch Laying Machine		0.25]
3	T8/ 2020-2021			0.07	Rs.15,000 + 12% GST
4		4 Nos. of Maize Com	bine Harvester	1.15	1
5		40 Nos. of Tractor 4	Wheel Drive	5.30	1
the date	of notification or		is are available at the Office of the Chief Eng A to 4.00 PM on all working days till the date mai.		
Last D	ate and Time fo	r issue of Tender Doci	ument	12.00 Noon on 27.	11.2020
Last D	ate and Time fo	r receipt of Tender Do	cument	2.00 PM on 27.11.3	2020
Tende	Tender Opening 3.00 PM on 27.11.2020				
letters of	on the date and th		Tenders will be opened in the presence of he office of the Chief Engineer (AE), Nandar DIPR / 3998 / TENDER / 2020		

shares. Tata Sons moved court on September 5, a day after SP Group signed an agreement with Brookfield to raise ₹3,750 crore as debt. Later, SP Group informed the SC it would separate from Tata

Group, ending its 70-year-old relationship with the conglomerate. SP Group said it would exit Tata Sons provided it got an ear-

www.pseindia.com and NSE web	site at www.nseindla.com.
	For Orbit Exports Limited
	Sd/-
Place : Mumbai	Neha Devpura
Date : October 26, 2020	Company Secretary

17	I TRANSMISSION LIMITED (In Liqui	idation)
	Office: Centre Point, 101, 1st Floor, Dr. B. A.		
	E-AUCTION		
Sale	of Assets under the Insolvency & Ba	nkruptcy (Code, 2016
	Date and Time of E-Aucti	on:	
ा	uesday, 20th November 2020 Between 1	.00 PM to 3	3.00 PM
	(With unlimited extension of 5 min	utes each)	
The f	ollowing Assets and Properties of M/s. EMI 1	ransmissior	Limited (i
Liqui	dation) forming part of Liquidation Estate are fo	r sale by the	Liquidator o
"AS I	S WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASI	S", "WHATE	VER THER
IS BA	SIS" and "NO RECOURSE BASIS". The sale	will be done	by the unde
signe	d through the e-auction platform provide	ed at the	Web Porta
(https	://ncitauction.auctiontiger.net)		
Lot	Asset	Reserve Price (INR)	EMD Amour (INR)
Lot 1	Assets of the Company in a slump sale as mentioned below (1 of 2 to 1 of 6)	72,00,00,000	7,20,00,00

	mentioned below (Lot 2 to Lot 6)	72,00,00,000	7,20,00,000
	OR	5	
Lot 2	Non-Agricultural land measuring area 50077 sqmt and Building measuring area 24764 sqmt (excluding Plant & Machinery) located at S. No. 157/1; 157/2/1; 157/2/2;	36,00,00,000	
Lot 3	Plant & Machinery at S. No. 157/1; 157/2/1; 157/2/2	30,00,00,000	3,00,00,000
Lot 4	Non-Agricultural land adjacent to the Plant at S. No. 158/2; Area - 10400 sqmt	3,00,00,000	30,00,000
Lot 5	Agricultural Land at S. No. 160; Area - 18000 sqmt	3,00,00,000	30,00,000
Lot 6	EMI Logo and Trademark (Registered with Trademark Department)	5,00,00,000	50,00,000
Lot 7	Vehicles - Hyundai Xcent 1.2 VTVT S - Regn - MH-15-ES-9966 at Centre Point, Dr. B.A. Road, Parel, Mumbai- 12, 24911 Kms, Year – 2015	4,33,044	43,304
Lot 8	Vehicles - Maruti Vitara Brezza ZDI Plus - MH- 15-FN-566 at Centre Point, Dr. B.A. Road, Parel, Mumbai - 12, 24911 Kms, Year – 2016		62,701
Lot 9	Karnataka - 6 Residential Plots each 1,200 Sq Ft at Project "Humdevanagiri" - Site No. 110, 111, 112, 131, 132 & 133 at Gowdasandra Village, Kasara Hobli, Gauribidanur Taluk, Karnataka	28,50,000	2,85,000

The above land, building and plant & machinery (Lot No. 2 to Lot No. 5) is located at Village Bramhanavade, Shinde - Naigaon Road, Taluka Sinnar, District - Nasik, Maharashtra

nterested applicants are requested to refer to the detailed E-Auction Process Document uploaded on the website of the liquidator http://head wayip.com under the tab Liquidation and on the E-Auction website https://ncltauction.auctiontiger.net. Last date to apply is 18th November 2020.

The Liquidator have right to accept or cancel or extend or modify, et any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to rejec any of the bid without giving any reasons

Contact Address for correspondence:

Headwa	y Resolut	ion and	Insolver	icy	Services	Pvt. Ltd., 708,	Raheja
Centre,	Nariman	Point,	Mumbai	-	400021,	Pvt. Ltd., 708, Maharashtra.	Email:
cirpemit	@gmail.co	m, ip103	362.desai	@0	mail.com	Tel No.: 022-66	107433
						Sd/-	2

	Sd/-
Date: 27th October 2020	Shailesh Desai - Liquidator
Place: Mumbai	IBBI/IPA-001/IP-P00183/2017-18/10362

Aditya Birla Capital Limited

Place: Mumba

Date : 26 October 2020



PROTECTING INVESTING FINANCING AD

Regd, Office: Indian Rayon Compound, Veraval - 362 266, Gujarat | Tel: 91 2876 243257 | Fax: 91 2876 243220 CIN: L671206J2007PLC058890 | www.adityabirlacapital.com | abc.secretarial@adityabirlacapital.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled on Thursday, 5 November 2020, inter-alia, to consider, approval of the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended 30 September 2020.

The Trading Window for dealing in securities of the Company, has been closed for all designated persons covered under Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by designated persons in listed or proposed to be listed securities of the Company, from 1 October 2020 and shall remain closed till 48 hours after the announcement of financials results i.e. up to 7 November 2020 (both days inclusive).

The information contained in this Notice is also available on the website of the Company at www.adityabirlacapital.com and also on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at lia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

For Aditya Birla Capital Limited

Sd/-Sailesh Daga **Company Secretary** FCS: 4164

PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED CIN: L74899DL1989PLC036849 Registered Office: A-3, Community Centre, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110028

PearlGlobal

Corporate Office: Plot No. 51, Sector-32, Gurugram-122001 (Haryana) Tel: 0124-4651000; E-mail: investor.pgil@pearlglobal.com; Website: www.pearlglobal.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Thursday, November 26, 2020 at 11:30 AM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 and 05th May, 2020, respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circular), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI Circular), without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the AGM along with Annual Report 2019-2020 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the company / depositories in accordance with the aforesaid MCA Circular and SEBI Circular dated 12 May, 2020, Members may note that Notice of the AGM and Annual Report 2019-2020 will also be available on the website of the Company at www.pearlglobal.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

We urge all the shareholders who have not registered their email addresses with the Company/ Depositories to do so forthwith in order to receive all communications promptly without any disruption. Updating of correct email address in the records will help us to communicate with you effectively, especially during this challenging times.

For this purpose, we request shareholders who have not updated their email addresses and Permanent Account Number to kindly update the same by following the below mentioned link and quoting your Folio No./ DP/ClientID, Certificate No., PAN, Mobile No., Email ID along with a self-attested copy of your PAN card/ Aadhar/ Valid Passport/ Share Certificate:

Process for member's registration Email ID and Bank details:-

Demat Holdings	The Members holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who have not registered their email addresses may temporarily register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at <u>int.helpdesk@</u> <u>linkintime.co.in</u> It is clarified that for permanent registration of email address and Bank Details in your Demat account, members are requested to approach the respective Depository Participant ('DP') and follow the process advised by DP.
Physical Holding	The Members holding equity shares of the company in Physical Form and who have not registered their email addresses and/or Bank Account details may register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at <u>mt.helpdesk@linkIntime.co.in</u> .
W/s Link Intime Indi	above matter, shareholders of the Company are requested to contact: a Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No NH-2, C-1 Block, LSC, Nea kpuri, New Delhi-110058, Tel: 011-41410592/93/94, Telefax: 011-41410591, Email a in
	LALL THE THE THE THE ATT A THE ATT ATT A THE ATT ATT A THE ATT A T

Montagentation of the second	For Pearl Global Industries Limited
Place: Gurugram	Sd/-
Date : October 26, 2020	(Company Secretary)

Image matrix : 11d Act, 2002 Ab Track of 1998 About a 1992 About		BAJAJ FINSERV مراز کو کارل	त्रस : तीसरा तल, बजाज फाइनेंस पं	ठाइनेंस लिमिटेड aशील टेक पार्क विमान नगर, पुणे महाराष्ट्र, इण्डिया–4	11014, महाराष्ट
अप्रत्येक प्रतिभुति किया प्रवर्षक विभिन्न 2002 के तत्व सांग गोहिंस अकेकरताकों ने संस के साजा प्रवर्षक विभिन्न 2002 के तत्व सांग गोहिंस का केकरताकों ने संस के साजा प्रवर्षक विभिन्न 2000 को उन्होंने तत्वा प्राय का प्रतिभाग के सिंग का को निमान के सारा के 2000 के निमान के सारा का के किया का प्रवर्षक विभिन्न के सिंग का को सांग ने 1000 के तार 2000 के किया के किया के किया का प्रवर्ष का प्रवर्षक विभिन्न के सारा का स्वर्धक विभिन्न के सार का स्वर्धक विभाग के सार का स्वर्धक के सार का स्वर्धक विभाग के सार का स्वर्धक विभाग के सार का स्वर्धक विभाग के सार का स्वर्धक के सार का		श	ाखा कार्यालय : ११वाँ तल, अग्रवाल	मेट्रो हाईट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, नई दिल्ली–110	0034
सहप्रापलां (si) को मिविदिक नोटिस दिया है के अपनी देसों का निर्मेत करने विरापल रहे दिया मिन्द्र-के प्राप्त के किंद्र क्या (si) / आ(si) के दिया अंदिन किए के प्राप्त के प्राप्त करकों के प्राप्त		वित्तीर अन्त	ा परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिव तर्गत प्रतिभूति हित प्रवर्तन अ	ज्रण और पुनर्निर्माण कि धारा 13(2) के धिनियम, 2002 के तहत मांग नोटिस	
में वुकु के साल-साथ आया जे से ज्या जुलक जो जलीने कारा जा जुल्म (जीनिंट ज्ञा रा प्रांत) के के कार (मे 1, 9, 9, - साम कि लग पर, कि जाई महाने के साल का के किल जीना सा पर माने का जा कि के का कि असे किय , अप्रा- सा तर उ जावला (जी) / संह- आप कर मां के साल की कार के किल जाता पर ना रेग का कि क्य किय (जा का क्य सा तर उ जावला (जी) / संह- आप कर मां के साल की कार के कि के किल जाता पर ना रेग का कि क्य किय (जा का क्य सा तर उ जावला (जी) / संह- आप कर मां के सा के कि के कि का कि के कि के कि असे कि असे किय (जा का क्य सा तर उ जावला (जी) / संह- अपरा न प्रांत के कि का कि के कि के कि के कि के कि असे कि असे कि असे कि असे कि असे किय सा तर के जावला न जावला न कि कि के कि का कि के कि के कि के कि के कि के कि असे कि असे किय (जा का कि क्य सा तर के जावला न जावला न जावला के कि का कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि असे कि असे कि असे कि का कि कि के के कि असे कि का कि के के कि के के कि असे कि असे कि जाव कि के के कि के के कि के के कि के के कि के कि कि के कि के कि कि के के कि के के कि के कि कि के कि कि के कि कि के के कि के कि के के कि के के के के के के कि के कि के					
प्राणं, वो / आण्, (वो) के लिए जीवती किए जी परिणापरकार किंगक 0 1 अपरब 2019 के क्या (लप, पीट, गेट- प्रायद कन परे तर प्रदा अपरवर्ग, (उदी) / परं- उपारक्षतों, जी के जके वार समय-समय पा प्राप्त का मुस्तिया के ति लिए जके क्या सार रक प्रमं के लिए पर का कार्यम्प दिवा के सिंग प्राप्ता / दुविदि विवा जा रक ते के प्राप्त कर के लिए पर का कार्यम प्राप्ता के गा, प्राप्त प्राप्ता / दुविदि विवा जा रक ते के प्राप्त कर के लिए पर कारकार प्राप्ता के गा, प्राप्त में प्राप्ता के प्					
Reference of a concepture, conce of any phone which failing a tight influe of a clifflight failing a failing in the concepture of a clifflight					
सुप्त तक उपारकर्ता (अ)/पद- उपारकर्ता (अ) को लग्ग के या समय- समय पर प्रा का का पुरिपोता के लिए उनके कवावा :पर करने के लिए युपारक (अ) लगा के उपार के उपार के <u>का जावला की (अपारक की लगा के उपारक की लगा कि कि का जावला के प्रा कि अपार का प्रा की कि कि का प्रा का का कि का जावला की (अपारक की लगा के उपारक की लगा के प्रा की जावला की कि का जावला के प्रा कि अपार का प्रा का उपारक की लागा के ता का उपारक को कि प्रा का प्रा का जाव के उपारक की लगा के प्रा के प्रा के प्रा की का जात की लगा के साले के प्रा के प्रा का उपारक को कि का जावला की (अपारक की लगा के प्रा </u>	सम	पत्ति बन गए हैं। तदनुसार,	उन्हें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय	परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अ	धिनियम, २००२ वे
प्रायस करते के लिए क्षय प्रवासन सुराग भे सुपरा/ सुवित किया जा रहा हो जा लिए क्षय का अप्रतिभ के स्वार प्रायस का प्रायस के प्रायस का (का का का स्वार प्रायस का प्रायस के प्रायस का (का स्वार का प्रायस का का लिए का स्वार का प्रायस का का स्वार का स्वार का प्राय का प्रायस का (का स्वार का प्राय का प्रायस का (का स्वार का प्राय का प्रायस का का लिए का स्वार का स्वार का स्वार का स्वार का स्वार का प्राय का का स्वार का का स्वार का प्रायस का प्राय का का स्वार का का स्वार का प्रायस का प्रायस का प्रायस का का स्वार का प्रायस का प्रायस का का का स्वार का प्रायस का का का स्वार का स्वार का प्रायस का का का स्वार का स्वार का प्रायस का का का का स्वार का स्वार का प्रायस का का का स्वार का का स्वार का प्रायस का का का स्वार का का स्वार का प्रायस का प्रायस का का का स्वार का प्रायस का प्रायस का का स्वार का का स्वार का का स्वार का प्रायस का का का स्वार का का स्वार का का स्वार का प्रायस का का का स्वार का का स्वार का का स्वार का का स्वार का का स्वार का प्रायस का का स्वार का का स्वार का का स्वार का प्रायस का का स्वार का का स्वार का का स्वार का प्रायस का का स्वार का स्वार का का स्वार का का का का का का का का स्वार का स्वार का का स्वार का स्वार का का स्वार का स्वार का का स्वार का स्वार का स्वार का का स्वार का का स्वार का स्वार का स्वार का का स्वार का स्वार का का स्वार का का स्वार का					
का काण जाता मं., / आपका गां काण (1) काण (1) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>उत्तक बकाया ऋण क</td>					उत्तक बकाया ऋण क
• (LAN to .401F5131359695) के .907 (3017807) (301780707) (30178070707) (30	क्र.	ऋण खाता सं. /	/ उधारकर्ता(ओं) के नाम	प्राप्त/गिरवी रखि गई अचल सम्पत्तियों/	माँग सूचना
$\frac{1}{2} \operatorname{creat}^{1/2} \operatorname{creat}^{1$					
अतिक संस्था निवास के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के साथ का साथ काथ के साथ के		1. आर.के. ब्रादर्स	(उधारकर्ता)	वर्णित—	27 फरवरी 2020
तारिष का अवास (सट-उपारकत) अलीता आवसात्र (सट-उपारकत) अलीता आवसात्र (सट-उपारकत) अलीता आवसात्र (सट-उपारकत) प्रत्या का का (सट-उपारकत) प्रत्या का का (सट-उपारकत) प्रत्या का का का का का स्टार्ग (क्रांग 47, 63 विषाः उस्तरा 16, 6, 64 पारंग तार्ग 6, 6, 64 पारंग तार्ग 7, 74 पारंग तार्ग 6, 64 पारंग तार्ग 7, 74 पारंग 7, 74 पारंग 7, 74 पारंग 7, 74 पारंग तार्ग 7, 74 पारंग 7, 74		व्यापार का पता :- दुनका	नं. 67 के ब्लॉक अनसल फॉरच्यून जिस्हरोग रोगना, 201201		1 1/14
3. अतिना अवयाल 4. सावय प्रकाश वपुर-वायुवन्व वार्वे (प्रय-2) वपुर-वायुवन्व वार्वे (प्रय-2) वार्वे वार्वे (प्रय-4) वार्वे वार्वे (प्रय-4) वार्व वार्व (प्रय-4) वार्वे वार्वे (प्रय-4) वार्व वार्व् (प्रय-4) वार्व वार्व (प्रय-4) वार्व (व्रय-4) वार्व वार्व (प्रय-4) वार्व (व्रय-4) वार्व (व			•	उत्तरप्रदेश—नोएडा—201301''	59,36,865/– (रुपये उनसठ लाख
14. संपं अशं (सि		3. अनिता अग्रवाल	· · ·		छत्तीस हजार आठ
विषय उपय के तिरादे की प्रतिस्था कि सेवा के लिए थे कदम उठाय जा रहा है। उपरोक्त उपयरकर्ता औ और 'या सहउपारकर्ताओं गारंट्रों के वी जाती है की दे दूसन गोटिस के प्रतिषय कि प्रवि के प्रतिर परिव के प्रति परिव कि प्रत के प्रति के प्रति परिव के प्रत के प्र				गर्त-टकाननं ४७ ६९	सौ पैंसठ मात्र)
परिषय: अन्य का प्रताद गोदिवा की प्रतिप्रधारित सेवा के तिएये कबन पठापा पा रहा के उपसेत का उपारतकर्ता की अर्भ, या सडउपारकर्त की गोर रंग ति वी जाती है की दे इस गोटिस के प्रकाशन की विनांक से 60 दिनों के भीतर भाविय के याज के साथ बकाया भुरातान कर जो (कि संधी उपाय के लिए पूर्वाग्रेड के दिना बे जाता है कि वो विगुख न हो और उपरोक्त सम्पत्तियों में सिरं पर की कि वि प्रजान न के के के लि दिवीय परिसम्पतियों के प्रतिभूतिकर आजे पु दुर्गनिर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा के प्रवान के कन्न स्वार्थ को के प्रकार की का रेग हि कि वो विगुख न हो और उपरोक्त सम्पत्तियों में सिरं पर की कवि प्रजान न बार का क्रम्सित विरिक्ष के प्रकार के अव्य वा प्रकार कि को जाते हा का कि न रेग कि कि वो विषय के वा का कि कि के को लो हा का कि न रेग के कि स्वार्थ के कि के स्वार्थ के प्रति के स्वार्थ का के का नोटिस (प्रवत मनसियों के सिरंगे) प्रार्थ की कि की कि के क्रम के आंक इंडिया का अधिकृत अधिकार होने के नाते हा का प्रवति या पुरिवम में क आंक इंडिया का अधिकृत अधिकार होने के नाते हा का प्रतिक्र विरिक्ष के प्रकार कि कि को कि तो कि को तो हा का स्वार्थ के प्रतिभित्त प्रति का स्वार्थ कर दिन्दी न अधिनिय प्रारं का या प्रतिकार प्राय प्रार्गनिर्मा के सिरंगे (प्रतिमित अधिनिय, दिव्य के के नोटित (प्रवत मनसियों के सित्ने) प्रारं का वीनिय के वा का इंडिया का अधिकृत अधिकार ती हित्य के नाते हा का स्वार्थ कर प्राय प्रार्गनिर्म के आंक इंडिया का अधिकृत अधिकार ती हित्य के माति कि को तो हा का स्वार्थ कर प्रतिमित कि वा क्रम के इंडिया का अधिकृत करी हुए निता वा का सित्य प्राय प्रारंग के नित्रे के को को तो के को तो तो कि की तो तिय के की तो तो के तित्वि कि को ति के कि ती त्यांक के तित्वि कि को ति के कि ती क्रिया के के को का ते हा कि को तो तो के को स्वार कि कि तो तिय के का तो कि के तो ति की तो तो की कि की तो ते के के ती त्या का के के तो ता तो के कि तो तिय के कि तो कि को तो तो के के तो तो के के ते तो तो के कि को का तो के के तो कि के ती कि को तो तो कि के तो ति के को तो कि के को तो तो का के के ते के तो के तो के के तो के तो के ते को तो तो के कि को को तो के के के तो का तते के कि को कि के को के ता ता के के के तो क्रार के के के के के के ते के ता तो के		उपरोक्त सभी का निवास : ब वसुन्धरा इनक्लेव एस ओ	ाएच–201, अभिमन्यू अपार्टमेन्ट्स ईस्ट दिल्ली–110096		
दी जाती है की वे इस नोटिस के प्रकारन की दिलांक से 60 दिनों के मीलर पविषय के वयाज के साथ बकाय मुकास कि सि स्वी स्वा स्वा के ते लिए व्रियो स्वे समयसि यं के लिए व्रियो स्वी कार्यवादी शुरू कि जिए गिर्गा ज अप के साल की को यह में साल सह विज विदे कि वे विषुख न हों और उपरोस सम्परियों में तीसरे पक्ष की लिप सुजान न <u>मजाज जाइनेंस लिमिटेड के प्रमार में है</u> । सात : हिल्मी/पसीआर हिनक: 24.10.2020 के प्रसि के विष विषुख न हों और उपरोस सम्परियों में तीसरे पक्ष की लिप सुजान न <u>मजाज जाइनेंस लिमिटेड के प्रमार में है</u> । सात : हिल्मी/पसीआर हिनक: 24.10.2020 के प्रसि में कि के लिए व्यक्त के प्रति : क्षेत्र के प्रति : क्षेत्र के व्यक्त के लिए व्रेयो के विष के विष के विष के विष के विष के प्रति : क्षेत्र के प्रति : क्षित्र के प्रति : क्षित्र के व्यक्त के लीहेल के लिए व्रेयो के क्रेप्त के लिए व्रेयो के कि लिए व्रेयो के क्रेप्त : क्षेत्र के लिए व्रेयो के क्रेप्त : क्षेत्र के लिए व्रेयो के क्रेप्त : क्षेत्र के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त स्व के प्रकार के लिए व्यक्त स्व क्रिय के क्रिप्त : क्षेत्र के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त स्व के प्रति : क्षित्र के व्यक्त के लिए व्यक्त स्व के व्यक्त कि क्रेप्त के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त स्व के व्यक्त के लिए व्यक्त स्व के व्यक्त स्व के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त के लिए वियक्त स्व के लिए व्यक्त के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त स्व के लिए व्यक्त के लिए व्यक्त के लिए व्यक्त के के लिए व्यक्त के के लिए व्यक्त के के लिए व्यक के के लिए व्यक के लिए व्यक्त स्व				0	
दी जाती है को वे इस नोटिस के प्रकाशन की दिरांक से 60 दिनों के भीतर परिषय के व्याज के साथ बकाय मुकान कर जे (हि से ते के तिए प्रवीय घरिस-परियों के प्रतिभूति किंग अपरी जे के तिए प्रवीय परिस-परियों के प्रतिभूति किंग अपरी जे के तिए प्रवीय परिस-परियों के कार्यवादी शुक्र किं जाएंगी जरात नगम के राज के गढ सी रात्त ही को की कि के विषुख न हों और उपरोक्त सम्पतियों में तीसरे पक्ष की रूचि सुज न <u>बजाज फाइनेंस तिपिटेड के प्रभार में है</u> स्वातः हिल्मी/एससीआर हिनक: 24.10.2020 के घरि। से स्वात्र का क्रांस बजाव फाइनेंस विभिष्ट, (किंग बांस) प्राविज्ञ जाता का स्वात्र का के नोट स से रात्त ही कि को विषुख न हों और उपरोक्त सम्पतियों के सिंह ही स्वात्र के जाती दिर्ग किंग के स्वात्र नार के राज के कि को जाता का स्वांत्र के स्वात्र के आंक इंडिया का अधिकृत अधिनम हो। (क्रांत्र के जाती के साथ की का परिस के बिंग के तिये) प्राविज्यिति कि (प्रतिन) नियायतती. 2022 का सिंहम (त्रांत्र से कि को ति) (क्रांत्र के जाती दिर्ग के आंक इंडिया का अधिकृत अधिकार हो। (त्रांत्र प्राव्य नीमना बैंग के आंक इंडिया का अधिकृत अधिकार हो। (त्रांत्र को निया वार्ग राठ के प्रात्य ने किंग हे तिये जाता करके जा नोटिस (क्राव्य साथिय के विश्व हे प्रात्र के विभिन्न (रांत्र) के प्रात्य स्वात्र पर्वात्र साथिय के विश्व राव्य के अधिनेया (प्रार्थ) की रायादर (ट) के जाता प्रात्त साधकित विभिन्न राव्य के क्रांत प्रतत प्रात्त शाकिय तिर्ग (त्रां तार्ग के विभिन्न क्रांत्र के साथ का (रात्र रात्त कि विभिन्न राव्य के साध की को किंग के स्वात्य का क्रांत के कि ने नाते, (रांत्र) के यातर राव्य रात्र के वांति हे सुद्व ने वाधित तो नियंत्र (रात्र) के यातर राव्य राव्य के वांति का प्रता के क्रांत विम्न राव्य के के साथ के वांत कि साथ के प्रात्य साधित के का प्रता के विभिन्न के के साथ राव्य के वांति के कि के काते, (रात्र) के यातर रात्र रात्र के साधित के कार्य ते वाधित ता स्वा क्र क्या का का वात्य के प्रात्य साधित के क्रांत के साणि ता स्वात क्रांत के साव राव्य कि कार्य ते हिंद हो जाता है, कि साध के वांत कार के वात्य साधित्य के वांत के की कार्य ता हो, के वितिय के बातर के प्रात्य साधित्य के वांत हो के वाता ता है, के साधन के बात को को के ते तत्य के की कार के साथ का साधित की कारा ता है। (रात्र) के सात रात्र का	नोर्ा	। टेस की प्रतिस्थापित सेवा वे	के लिए ये कदम उठाया जा रहा है।	। उपरोक्त उधारकर्ताओं और/या सहउधारकर्ताओं	' ों गारंटरों) को सला
लेने के लिए वितीय परिसापनियों के प्रतिभुद्ध कुल कि जाएगी उपरोक नाम के पांची को यह भी सरवाह दी जाती है कि वे विमुख न हो और उपरोक्त सम्पत्तियों में तीरिपरे प्रव की रूवि युज्ज न <u>बजाज फाइन्ट्रेंग वितिरिटंड के प्रभार में है</u> स्थान : किली/एससीआर किवंक 2.4.10.2020 के प्रविश्व कितने कसके का नोटिश (क्रमत) मिका कि प्रव कसके का नोटिश (क्रमत) मिका कि प्रव करके का नोटिश (क्रमत) मिका कि प्रव कार्यों का प्रतिभूति कि प्रव करके का नोटिश (क्रमत) मिका कि प्रव कार्यों का प्रतिभूति कि प्रव करके का नोटिश (क्रमत) मिका कि प्रव कार्यों का प्रतिभूति कि प्रक करके का नोटिश (क्रमत) मिका कि प्रव कार्यों का प्रतिभूति कि प्रव करके का नोटिश (क्रमत) मिका कि प्रव कार्यों का प्रतिभूति के प्रविश्व कि व्यक्ति कार्यों का प्रतिभूति का प्रतिभा कि तिरो कार्यों का प्रतिभूति के प्रव कार्यों का प्रतिभूति के प्रव करके का नोटिश (क्रमत) मिका प्रत कार्यों का प्रतिभूति के प्रव कार्यों का प्रतिभूति कार्या का आवित् कार्यों के मति, कार्यों का प्रतिभूति के प्रतिभ कि तिरो कार्यों का प्रतिभूति के प्रतिभ कि प्रत कार्यों का प्रतिभूति के कि प्रत कार्यों का प्रतिभूति कि प्रत कार्यों का प्रतिभूति कि प्रत कार्यों का प्रतिभूति के प्रतिभ कि प्रत कार्यों का प्रतिभूति कि प्रत कार्यों का प्रतिभूति कि प्रत कार्यों के प्रतिभ के प्रत कार्यों का प्रतिभूति कि प्रत कार्यों का प्रतिभ कि प्रत कार्यों का प्रतिभ कि प्रत कार्यों के प्रतिभ कि (प्रत के प्रतिभ के प्रत कार्य के कार्यों का प्रतिभ कि तिम्बर के प्रतिभ के प्रत कार्या का प्रतिकार कि प्रत कार्य के प्रत कार्या के प्रत कार्या का कार्यों का प्रतिभ करी कार प्रत कार्यों के प्रतिभ कार्य का प्रत के प्रत कार प्रत के प्रत कार के प्रत कार कर कार कार कार कार कार्या का प्रतिभ कर के इस् प्रतिभ कार्य कार्यों के प्रत कार्य के प्रत कार कर के प्रत कारिय का प्रतिभ कर के इस प्रत का त्यां के प्रत कार्य का कार्य के प्रत के प्रत कार्य कार्य का कर हे इस तिय जाता है कि त का त्यां का प्रत कार्य के प्रत कर के प्रत कार कार कार कारिय कार्य कार्य कर कर हुए ती के वार्य का हि के त का त्यां का प्रत कर कार कर कार कर कार कर कार कर कार कर कार का	दी	जाती है की वे इस नोटिस के	प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों	के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ बकाया भुगतान	करें जो (किसी अन
के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवादी शुंक कि जाएगी। उपरोत्त माम के पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि ये दिमुख न हो और उपरोत्त सम्पतियों में तीसरे पक्ष की रखवे सुजन न याजा <u>प्रावदार्थ दिन्दे के प्राप्त में है</u> के प्रति : संसर्ग बजाव फाइनेंस दिमिटेड (क्रिय सो वा) प्रापिकृत के प्रति : संसर्ग बजाव फाइनेंस दिमिटेड (क्रिय सो वा) प्रापिकृत के प्रति : संसर्ग बजाव फाइनेंस दिमिटेड (क्रिय सो वा) प्रापिकृत के प्रति : संसर्ग बजाव फाइनेंस दिमिटेड (क्रिय सो वा) प्रापिकृत के प्रति : संसर्ग बजाव फाइनेंस दिमिटेड (क्रिय सो वा) प्रापिकृत के प्रति : संसर्ग बजाव फाइनेंस दिमिटेड (क्रिय सो वा) प्रापिकृत के जानेटिन (क्रबल सम्पतियों के दिसे) आयेतरा का प्राप्त के अंग्रे दुविया के दियरे सिंदनी=11005 कको जानेटिन (क्रबल सम्पतियों के दिसे) आयोतरा का प्राप्त के आगे दिविया का अधिकृत अधिकारी हो के गते. (क्रवल साम्पतियों के दिसे) आयोतरा का प्राप्त के आग अदिकृत अधिकारी हो के गते. (क्रवल साम्पतियों के दिसे) आवेतरा ता प्रता कि प्राप नुनिर्माण की प्राप्त सिंदा कि दियो के विते प्राप्त सुर्ग के जाये ति प्राप्त के अधिक दिवे के के प्राप्त कर के प्राप्त के दिसे के प्राप्त के साम के ता प्राप्त के ता प्राप्त के वात के तिके ते कि तो. (म्रविय को की पात ति दि (2) के वंतरा उपरके सायारिय ति कीनियम, का ब्रावल के ता प्राप्त के ता प्राप्त कि ता प्राप्त के ता प्राप्त के ता प्राप्त के ता प्राप के ता प्राप्त कि ता प्राप्त के ता प्राप्त के ता प्राप्त के के ता प्राप्त के ता ता रहे कि ता प्राप्त के ता ता के ति के ता प्राप्त के ता स्व के ता प्राप्त के ता ता रव ति कि के ता प्राप्त के ता ता रव ति के ता प्राप्त के ता ता के ता ता रव ता ता के ति के ता पात के ता प्राप्त के ता प्राप्त के ता ता ता के ति के ता प्राप्त के ता सार वा के ता ता ता ता ता ते ते के ता ता ता ता ता ता ता ता ते ते ता ता रव ता ता के ते ता ता रव ता ताव के ता तिया के प्राप्त के ता ता ता ता ते ते के ता ता ता ता ता ते ते ता ता ता ता ते ते के ता ता प्राप्त के ता ता ता ता ते ते के ता ता ता के ता ता ता ता ते ते के ता ता ता ता त	सह	1 उपाय के लिए पूर्वाग्रह के 1 1 के लिए वित्तीय परिसम्पत्ति	बिना बजाज फाइनस लिमिटेड के 171ों के प्रतिभतिकरण और प्रनर्निस	पास उपलब्ध) प्रतिभूत परिसम्पत्तियां / गिरवी रर र्गण और प्रतिभति हित के प्रवर्तन अधिनियम - २०	खा सम्पत्ति का कब्ज ०२ की धारा १२(४
पुरतिक नाम के पक्षों को यह भी सताह दी जाती है कि वे विमुख न हों और उपरोक्त सम्पत्तियों में तीसरे पक्ष की रूपि ज् बजात फाइनेंस लिमिटेड के प्रमार में हैं। हाता का का कि के प्रति के कि				וויי שולאוליאָלייאַליי אינרי שועוייעיי, 20	02 47 41(1 13(4
स्थान: दिल्ली/एलसीआर हिनांक: 24.10.2020 के प्रती: सेयसं बजाज माइमेस लिमिटेड, (विनय सोसती) प्राविकृत प्रित्रा के प्रती के प्रति के प्रत के प्रति के प्रति के प्रत	उप	रोक्त नाम के पक्षों को यह व	भी सलाह दी जाती है कि वे विमुख	। न हों और उपरोक्त सम्पत्तियों में तीसरे पक्ष की रू	त्तचि सृजन न करें। ज
द्विरियन बैंक क्रिय प्राण्ड कि कियं प्राण्ड कि क्रिय क्र क्रय क्रय क्रय क्रय क्रय क्रय क्रय				के गनि - मेयर्प बनाज फाटनेंग विमिटेट (विनग मो	ोबनी) गाधिकन अधिका
A Member of Evonik Industries Goop) A Member of Evonik Industries Goop) A main of Evonik Industries Boop) A main of Evonik Industries Boop) A main of Evonik Industries Boop) 					
Control of the second s					
$\frac{1}{10000000000000000000000000000000000$	यूनिय	ान बैंक आण			
करूके का नोटिस (अचल सम्परियों के लिये) [µतिभूति डित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(1)] .अधोडरताक्षरी द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी होने के नाते, य स्पार्तियों के प्रतियुत्तिश्वर (प्रवर्तन) नियम की आर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, (2002 का 54) और अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत उसके सहपठित प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गता प्ररत शाफियों का प्रयोग करते हुए दिनाक 9.2019 को डिमार्क नरिप्रेस गाँध कर कर्जवार(राग्) और गारंदर(राग्) जिनके नाम, (1) श्री त कुमार सुपुत्र श्री यांक रार्फ राग्ये) और गारंदर(राग्) जिनके नाम, (1) स 2019 को डिमार्क नरिप्रेस गाँध कर कर्जवार(राग्) और गारंदर(राग्) जिनके नाम, (1) त कुमार सुपुत्र श्री यांक राष्ट्र राग्ये क. 10.66.171 /- (केवल दस लाख घराठ डाजा र एक सौ युकहत्तर रुपये) का प्रयाज सहित कथित नोटिस की प्राति की छ स 80 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की गई है। दार(रो) और गारंटर(रों) तथा विशेष रूप से आम जनता को नोटिस दिया जाता है। दार(रो) और गारंटर(रों) का ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को प्रुजने के सिधिर (क्रम्पनी संप्रत ख्रम्ब क्रमेस्त संपत्तियों को पुडाने के लिये उपलब्ध समय के में औधनियम की छारा 13 की उपन्य रहतार रुपये) या थ्या जाता है। दार(रो) और गारंटर(रों) का ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को प्रुजने हित त संपास कि साध ठिक, आदनियम की मांग कर निया है। दार(रो) और गारंटर(रों) और विशेष रूप से आम जनता को साख्यान किया जाता है। दार(रो) और गारंटर(रों) और विशेष रूप से आम जनता को साख्यान किया जाता है। दार(रो) और गारंटर(रों) और विशेष रूप से आम जनता को साख्यान किया जाता है। दार(रो) और गारंटर(रों) का ध्यान 3 की अंग्र संचे से उकित्स देवरा सिंह सुनियन के तेनाव वा छियासत हजार रुपये प्रे पर व्या लिस के प्रात्त यात्त व्या कि के आंक इंडिया के तेनरेत 31.08.2019 तक नोटिस में उल्लिखित देय राशि रु, मंतुति ति ति के तं सांह के साधन के खार प्रकति हतार रुपये प्र राय खाज सिंहत यूनियन (कितिय क्रियेस, बी–2 ब्लॉक, परियेस प्रि तिहित के ते सांह प्र रात्त 30 के से प्रया पाच कर किये ही कर सी अधिनियम के कोति नियाली तिहा तीय के संत्र प्रात्त कर के प्रात्त कर के सिंह तित्त तिहित करानी वधिव्या के के के स्वरण प्र व्रियेस संत कर के सिंह तिहत कराने वधिव्र के के के स	यूनिय	ऑफ इंडिया	of India	(A Member of Evonik Industries Group CIN: L34102UP1988PLC010141	D)
अधोहरताक्षरी द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, 1 समयतियों के प्रतिभूतिकरण एवम पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, (2002 का 54) और अधिनियम को धारा 13(12) के अंतंगत उसके सहपतित्र प्रतिभूति 2019 को डिमांड नोटिस जारी कर कंतंगत उसके सहपतित्र प्रतिभूति 3 2019 तक नोटिस में उत्तिधित ये राषी के 10.66.171 / – (केवत य साख 3 रोश पारंटर (रो) और पारंटर (रोग) के प्रांतगत उसके सहपतिय प्रतिभूति ते विमयम 33 के साथ पठित विनियम 47 के उनुसर 3 रोश पारंटर (रोग) ये दारी का प्रयोग करते हुए दिनाक 3 2019 तक नोटिस में उत्तिधित ये राषी के 10.66.171 / – (केवत य साख 1 पर 20 अवन्द्र 2020 के किया न प्रांत के प्रांत करने के नोट सि या जाता है कि ते संपत्ति के साथन रक्षा विधिय कर में के आप करते हुए नोचे वर्णित (रोग) और पारंटर(रोग) का ध्यान. आरक्षित संपतियों का प्रयोग करते हुए नोचे वर्णित (रोग) और पारंटर(रोग) का ध्यान. आरकि संपतियों का प्रयोग करते हुए नोचे वर्णित (रोग) और पारंटर(रोग) का ध्यान. आरकि संपतियों का प्रयोग करते हुए नोचे वर्णित (रोग) और पारंटर(रोग) का ध्यान. आरकि संपतियों का प्रयोग करते हुए नोचे वर्णित (रोग) और पारंटर(रोग) का ध्यान. आरकि संपतियों का प्रयोग करते हुए नोचे वर्णित (रोग) और पारंटर(रोग) का ध्यान. आरकि संपतियों का प्रयोग करते हुए नोचे वर्णित (रोग) और पारंटर(रोग) का ध्यान. आरकि संपतियों का प्रयोग करते हुए नोचे वर्णित (रोग) और पारंटर(रोग) का ध्यान. आरकि संपतियों का प्रयोग करते हुए नोचे वर्णित (रोग) और पारंटर(रोग) का ध्यान. आरकि संपतियों को छुड़ाने के तिये उपलब्ध समय के में अधिनियम के धाक्ष 13 की उप-धारा (८) के प्रावयों कि राताति मूंति व्यूनियन आंफ इंडिया, वी–2 र्द्रांत, परिया है कि वे रात्र (रोह) रुद्रांत प्रित्न व्यूनियन संख के अंग संख के प्रांत का लेनेदेत 31.08.2019 तक नोटिस में उत्तिहि के जीवार एक ना.11/, –110086, जोसेट रिकंट्रव्रयन कय्रानी (रॉफ) प्रित्नि क रेथीन वर्ता के आप सुपुत्र औ शीशा पाल कि के रेशोंन संख के आंफ इंडिया स्वर्ति के आसे दिकं संख भी अत्तान कु कार सुपति देकर प्रांत स्वर्ता के स्रांत युन्तिने के आंग सुप्रति के अधीन निरामित देक के अधीन मारती य (य नर्तिमां प्रांत) द्वियत के संख में वित्तीय आसिता के क अधीम सिंग के अधीन मारती य (य नर		ऑफ इंडिया 3 आन्ध्रा (A Government of India Undertakin (A Government of India Undertakin	of India কার্যাইয়ান orporation	(A Member of Evonik Industries Group CIN: L34102UP1988PLC010141 पंजी. कार्यावाय: ए–5. यूपीएसआ. एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरौला–24	p) ईडीसी इंडस्ट्रियल 14223
र सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एयम पुनर्मिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, (2002 को 54) और अधिनियम की घारा 13(12) के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभूति प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतंगत प्रदस शासियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 5.2019 को हेमांड नोटिस जारी कर कर्जवार(रो) और गारंटर(रो() जिनके नाम. (1) श्री 1 कुमार सुपुत्र श्री श्रेष्ठ राष्ट्र कर प्रयो) का प्राजा सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह को 3.2019 तक नोटिस में उल्लिखित देय शांश रु. 10.66,171/- (येवल दस लाख रार ठा रार एर रुपय) के याजा सहित कथित नोटिस के प्रात्ति की य से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की गई है । 1र(रों) और गारंटर(रों) तिथा विशेष रुपय शिंग का जा नोटिस दिया जाता है, कि सताक्षरी ने कथित अधिनियम की घारा 13 की उप–धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित 1रियम, 2002 के नियम 8 के अंतंगत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रीने वर्णित सताक्षरी ने कथित आधिनियम की घारा 13 की उप–धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित 1रियम, 2002 के नियम 8 के अंतंगत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रीने वर्णित स्वाता है । 1रार्(रों) और गारंटर(रों) तैय विशेष रूप से आम जनता को नोटिस दिया जाता है, कि ते नियम, 2002 के नियम 8 के अंतंगत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिये वर्णलब्ध समय के में अधिनियम की घारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानी पर आमंत्रित किया जाता है । 1रार्(रों) और गारंटर(रों) और विशेष रूप से आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे राजपत्ती स्वाध किश्वा प्रका क लोनदेन मा तक रे और उनके द्वारा किया जाता है। 1रार्(रों) और यारंटर(रों) के धिय-धार एक सॉ इकहत्तर रुपये) पर व्याज सहित यूनियन कॉफ इंडिया, बी–2/15, बी–2 व्लॉक, पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 के प्रमार के हो। 1रां 11 <u>अववरि एलकर्म</u> देश क्रसान कम्यनी (इंडिया) लिसि कम्पनी अभिन क्रमह नम्यन क्रय, नियत्त वे यो राशि हरे कम्पनी अभिव क्रमेव मया का सार सा होगा। <u>बावति क</u> आश्वत क्रिया के क्राय प्रतत्त के क्राय स्वा के से क्राय प्रति सि खा उत्त भ्रिति कर (योगत क्रया खात के असिन क्रया प्रात्त में है। कर्यानी के संखा उक के अमन माना यात्र सिंह के संविक्त यात्र के सा होगा। 1राराठ कर्य सार्व कर के के क्रया प्रात्त के आत्र वात्त के क्रया प्रत्त के क्रया क्रय के क्रया त्र त्रिविय कर्यानी के जायर क्र अधिनित्र कर कर से	राखा कार्यालयः बी कब्जे	ऑफ ईडिया 3 <u>अनहरा</u> <u>ANDERA</u> <u>16</u> Government of helic Undertakte 4 Government of helic Undertakte 4 Government of helic Undertakte 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	of India कार्योरशन orporation च्यम विहार, दिल्ली—110063 त्तेयों के लिये)	(A Member of Evonik Industries Group CIN: L34102UP1988PLC010141 पंजी. कार्यालयः ए5, यूपीएसआ: एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरौला24 फोन : 09837923883, फैक्स :(0 ईमेल आईडी : Insilco@evonik	p) ईडीसी इंडस्ट्रियल 14223 15924) 252348, 1.com
प्रेवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतंगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनोंक 2.2019 को डिमांड नोटिस जारी कर कर्जवार(ग) और गारंटर(गें) जिनके नाम. (1) श्री 1 कुमार सुपुत्र श्री शीश पाल सिंह (2) श्री शीश पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह को 3.2019 तक नोटिस में उत्लिखित देय राशि क. 10,66,171/- (केवल दस लाख सठ हजार एक सी इकहत्तर रुपये) का व्याज सहित कथित नोटिस की प्राप्ति की व से 80 दिनों के भीतर मुगतान करने की मांग की गई है । 1र(गें) और गारंटर(गें) देय राशि का मुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिये एतदद्वारा 1र(रों) और गारंटर(रों) देय राशि का मुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्वारा 1र(रों) और गारंटर(रों) देय राशि का मुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्वारा 1र(रों) और गारंटर(रों) वेय राशि का मुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्वारा 1र(रों) और गारंटर(रों) वेया विशेष कप से आन जनता को नोटिस दिया जाता है कि 1नियम, 2002 के नियम 8 के अंतंगत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित 1र(रों) और गारंटर(रों) को ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के में अधिनियम की घारा 13 की उप–घारा (4) के सहपठित प्रतिमूति 1राए(रों) और गारंटर(रों) को ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के में अधिनियम की घारा 13 की जप–घारा (8) के प्रावधानों पर आमित्र किया जाता है कि वे रांपत्ति के साध किसी प्रकार का लोनदेन मत करें और उनके द्वारा किया जाता है विवे 1 संपत्ति के साध किसी प्रकार का लोनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गाता है विवे 1 संपत्ति के साध किसी प्रकार का लोनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गाता है विवे 1 संपत्ति के साध किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गाया किसि में 1 संपत्ति गतिवत्त श्र प्रक्ति अपी के फतेट नंबर 505, मूतल, कोडती घरोली, मयूर विहार, फेज—॥। -110096, जो विधित्त श्री अमित कुमार सुपुय्त श्री शिरा (दुडिया) तिर्मित एतजाईजी श्रेणों के फंतेट नंबर 505, मूतल, कोडती घरोली, मयूर विहार, फेज—॥। -110096, जो सेत्वर विविक्त श्रीक्रिय किया प्रियूति विद ए वर्गित, असित्य क्रियम के अधीन निर्गमति रहे प्रतिष्र्रियो : दिल्ली योगित स्प्राया कि युपुत्तिकर र रवित्वत के असित मुक्तम सुकु करा से क्र यारिय दार्यित ऋग आर्यित विधियम के अधीन निर्गमत राश : दिल्ली योगित त्र प	गाखा कार्यालयः बी कब्जे (प्रतिमूति हित	ऑफ श्रीवया 1) <u>अगवया</u> <u>ANDIRA</u> <u>10</u> Covernment of India Undertain <u>10</u> c c c c c c c c c c	of India कार्गप्रेशन केर्ग्रेजनार्थ स्वयम विहार, दिल्ली—110063 त्तेयों के लिये) 002 का नियम 8(1)}	(A Member of Evonik Industries Group, CIN: L34102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यालय: ए5, यूपीएसआ: एस्टेंट, भारतीयग्राम, गजरौला24 फोन : 09837923893, फैक्स : (0 ई-मेल आईडी : Insilco@evonik वेबसाइट : www.insilcoindia.cor दुवना	o) ईडीसी इंडस्ट्रियल 14223 15924) 252348, .com m
9.2019 को डिमांड नोटिस जारी कर कर्जदार(रॉ) और गारंटर(रॉ) जिनके नॉम, (1) श्री 1 कुमार युपुत्र श्री शोश पाल सिंह युपुत्र श्री अर्जुन सिंह को 8.2019 तक नोटिस में जिल्लखित देय राशि रु. 10,66,171/~ (कं वर्ज दोगांग) को व्या-वर्ष तरे के प्रांग की गई है। शर 5 जार एक सी इरकहतर रुपये) का व्याज सहित कथित नोटिस की प्राप्ति की a से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की गई है। गर(रॉ) और गारंटर(रॉ) देय राशि क भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिये एतदद्वारा गर(रॉ) और गारंटर(रॉ) तथा विशेष रूप से आम जनता को नोटिस दिया जाता है, कि रताक्षरों ने कखित अधिमियम की घरा 13 की उप– घारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित तार(रॉ) और गारंटर(रॉ) का व्यान, आरक्षित संपत्तियों को प्रुडाने के लिये उपलब्ध समय के मं अधिनियम की घरा 13 की उप– घारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित (रॉ) और गारंटर(रॉ) का व्यान, आरक्षित संपत्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित का लेनदेन मत करे और उनके द्वारा किया गया किसी भी का लेनदेन 31.08.2019 तक नोटिस में जिल्लखित देय राशि रु. 10,66,171/~ त स लाख छियासठ हजार एक सौ इकहत्तर रुपये। पर खाज सहित यूनियन तोर्ग प्रतेट(रॉ) औ के प्रविक्त, प्रियम विहार, दिल्ली–110063 के प्रमार के डी। जां हे दिया, वीन्व-2 र्गा के ये विरय प्राप्त के खानिस वे डी। का लेनदेन आ.08.2019 तक नोटिस में जिल्लखित देय राशि रु. 10,66,171/~ त व सा खाख आत्र के प्रवर निकर प्रवित्त के यागील के खाननानेल में है। का लेनदेन आ.08.2019 तक नोटिस में उकित्व खाति से रागिल रुक्त विकित के जामि क रुक्त के प्रवम तिकर प्	गाखा कार्यालयः दी कब्जे भितिमूति हित अधोहस्ताक्षरी द्वारा र	आंक राष्ट्रया क अगलगा A MUNIAN A MUNIAN A Construction of the Advances A MUNIAN A MUNIAN	of India कार्योरेशन रेक्सि सेंस्म विद्यार, दिल्ली—110063 त्तियों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नार	(A Member of Evonik industrise Group CIN: L34102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातवार: e-s. यूपीएसआ एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन: 09837923893, फैक्स: (0 ई—मेल आईडी: Insito@evonik वेबसाइट: www.insitocindia.com स् <u>रावना</u> प्रतद्वारा स्रचन ते जती है जि	b) ईडीसी इंडस्ट्रियल 14223 15924) 252348, 1.com m क सेबी (सूवीयन
1 कुमार सुपुत्र श्री शीश पात सिंह (2) श्री शीश पात सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह को 3.2019 तक नोटिस में उल्लखित देय राशि रु. 10,66,171 / – (केवल दस लाख सत हाज स्वर के 12 कि स्वर के 12 कि से उल्लसित क्यें के नीटिस के प्रकार रुपये) का व्याज सहित कथित नोटिस की प्रार्पिक की क्वेसाइट www.bseindia.com पर सा बॉम्वे स्टॉक एससों की वेससाइट www.bseindia.com पर सा बॉम्वे स्टॉक एससों की देसपाद करने त्या ता को पर 20 अर्मट् बर्च 2020 को कब्जा प्राराज कर लिया है। पर 20 अर्मट् बर्च 2020 को कब्जा प्राराज कर लिया है। पर 20 अर्मट् बर्च 2020 को कब्जा प्राराज कर लिया है। पर 20 अर्मट् बर्च 2020 को कब्जा प्राराज कर लिया है। पर 20 अर्मट् बर्च 2020 को कब्जा प्राराज कर लिया है। पर 20 अर्मट् बर्च 2020 को कब्जा प्राराज कर लिया है। तर संपत्ति के साध किसी प्रकार का लोनदेन मत करें और उनके द्वारा किया जाता है कि वे संपत्ति के साध किसी प्रकार का लोनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गाता है कि वे संपत्ति के साध किसी प्रकार का लोनदेन मत करें और जनके द्वारा किया जाता है । वर्च ते स्वाध किसी प्रकार का लोनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गाता हि वे वे संपत्ति के साध किसी प्रकार का प्रकट (रॉ) और योरोल, स्पर्य सिहार प्रित्ती र रुप्ट रिक्र प्रवार ना करके जीर जनके द्वारा किया गाता हि वे वे संपत्ति के साध किसी प्रकार का लोनदेन स्व कर अंगर राशि रु त्यतित र राशि रुप्ट रिक्र ट्रव्य का प्रकार के रागि रुप्ट र रुप्ट र रुप्ट र रुप्ट र रुप्ट र रेक रचालिक में है। अख ले साध करी प्रकार कु रागत र राती रे विराय असिल कुमार सुप्र ही या लिपि के के रागिक में इडिया नित्त को अधिन तुमार सुद्र ही या वित्ती के बोधन ते परित प्रकार के रागे र के अं र रावा र के अंगर के साति युत्ति र रुप्ट र युत्त जी वित्य या सिंह र रेक र राति र के बाध र र राते र रं र रं र त्य र रे का रातत र दित्ती य तरित्त के राति य र राव र र रातन के का र रंक राति र के रावा र के अं र ते तत ती र र रे	गाखा कार्यालयः दी कब्जे प्रितिपूति हि अधोहस्ताक्षरी द्वारा र य सम्पत्तियों के प्रतिग (2002 का 54) और	अंक राष्ट्रा क <u>ANUNIA</u> La Generation of Market Market a Generation of Market Market b Market	of India कार्योरेशन दिम दिहार, दिल्ली–110063 र् दम दिहार, दिल्ली–110063 र् दम देहार, दिल्ली–110063 र् द्यों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गैर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन के अंर्तगत उसके सहपठित प्रतिभू	(A Member of Evonik Industrise Group, CIN: L34102UP198BPLC010141 पंजी, कार्यातच: ए, यूपीएसआ एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन : 09837923893, फैक्स : (0 इं—मेल आईडी : Insilco@evonik वेबसाइट : www.insilcoindia.cor सूचना एतदद्वारा सूचना दी जाती है वि अनिवासार एवं प्रकटीकरण ओसाएं ति के विनियम 33 के साथ पठित विनिय	p) २००४ १ ८६४२ ईडीरीग इंडरिट्रयल 4223 95924) 252348, .com m क सेबी (सूसीयन वनियमावली, 2015 म 47 के अनुसरण
सठ हजार एक सौ इकहतर रुपये) का व्याज सहित कथित नोटिस की प्राप्ति की ब से 60 दिनों के मीतर मुगतान करने की मांग की गई है । ार(रों) और गारंटर(रों) देय राशि का मुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिये एतदद्वारा ार(रों) और गारंटर(रों) तथा विशेष रूप से आम जनता को नोटिस दिया जाता है, कि रसाझरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के सहपठित प्रतिमूति हित 1 नियम, 2002 के नियम 8 के अंतंगत उसे प्रदत्त शक्तियों (4) के सहपठित प्रतिमूति हित 1 नियम, 2002 के नियम 8 के अंतंगत उसे प्रदत्त शक्तियों (4) के सहपठित प्रतिमूति हित 1 नियम, 2002 के नियम 8 के अंतंगत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित 1 नियम, 2002 के नियम 8 के अंतंगत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित 1 नरारं 20 अक्टूबर 2020 को कब्जा प्राप्त कर लिया है । 1 रार(रों) और गारंटर(रों) का ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आर्मत्रेत किया जाता है । 1 रार(रों) और गारंटर(रों) और विशेष रूप से आम जनता को सावधान किया जाता है । 1 रार(रों) और यारंटर(रों) का ध्यान, प्रक सौ इकहत्तर रुपये) पर व्याज सहित यूनियन ऑफ इंडिया, बी–2/15, बी–2 व्लॉक, पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 के प्रभार के 1 होगा । 3यवल साय्पतियों के विरारण 1 निर्मत एलआईजी श्रेणी के पलैट नंबर 505. भूतल, कॉडली घरोली, मयूर विहार, फेज–॥।। -110096, जो विधित श्री अत्मित कुमार सुयुत्र श्री शीरा पाल सिंह के स्वामित्व में है । क: 20.10.2020 3धिकृत अधिकृत अधिकि प्रत्रेप्त क्या प्रतार (ईडिया) तिमिति क्यम्नी अधिनियम के अधीन निर्गामित एक प्रतिभूतिकर एवं पुनर्निर्माण चार्ट की धारा 3 के अधीन मारतीय ! अधिकारी ने विभिन्त बैंकां ऋण्ण प्रात्त के स्वाम प्रति हि 3धीन प्रात्त यो जि स्वंध में वित्तीय आसित्त के संघ पति में खि आधीक संके विधिन्ती के संक्र प्र प्राप्त तिर्या के सि 3 वर्णित रूण खातों के संख ये वित्तीय आसित्तों का ध अधीन प्रतिमूं क्रेडिय से में वित्तीय आसित्तों का ध 3 वर्णित कर्जवारों () नियम 2 के अधीन प्रा 3 वर्णित र्जवारों () नायम 2 के अधीन प्रा	गाँखा कार्यालयः भी कब्जे भितिमूति दि ज अधोहस्ताक्षरी द्वारा र य सम्पत्तियों के प्रतिम (2002 का 54) और पूर्वतनंग नियम, 2002 9.2019 को डिमांड ने	अंक राष्ट्रा अक्रमग - २. १५ थी-२ ब्लॉक परि का नोटिस (अचल सम्पा त (प्रवर्तन) नियमावली, २ रूपियन बैंक ऑफ इंडिया त्विकरण एवम पुनर्निर्माण ३ अधिनियम की धारा 13(12) के नियम ३ के अंतंगत प्रदत्त रिस जारी कर कर्जवार(रो)	of India काग्रियन कार्यस्य कार्यस्य दिहार, दिल्ली—110063 त्रियों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात ौर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभू शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनां और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श्र	(A Member of Evonik Industries Group, CIN: L34102UP198BPLC010141 $\dot{\mathbf{u}}$ (जी. σ ntat(σ ar: v -5, χ ਧੀ(v cram: vcrčz, ntcfttatint, noticit)- vtrčd: ntcftatint, noticit)- vtrčz, ntcftatint, noticit)- vtrčz, ntcftatint, noticit)- vtratic, noticit, not	p) २००० ४ २ २००१ ईडीसी इंडरिट्रयल 14223 15924) 252348, .com m क सेबी (सूचीयन वेनियमावली, 2015 म 47 के अनुसरण 1र निदेशक मंडल 2020 को, जन्य के
व से 80 विनी के मौतर पुनर्तान करन को मौन को गेइ हैं। TR(सें) और गारंटर(रों) देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्वारा TR(सें) और गारंटर(रों) तथा विशेष रूप से आम जनता को नोटिस दिया जाता है, कि स्ताप्त में केथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित tr(सें) और गारंटर(रों) का ध्यान, आरसित संपत्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित 17 पर 20 अक्टूबर 2020 को कब्जा प्राप्त कर लिया है । TR(रों) और गारंटर(रों) का ध्यान, आरसित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है । TR(रों) और गारंटर(रों) का ध्यान, आरसित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है कि वे 18 पंपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया जाता है कि वे 19 पंपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया जाता है कि वे 19 पंपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया जाता है कि वे 19 पंपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन सरकरें और उनके द्वारा किया गाता है कि वे 19 पंपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन सरकरें और उनके द्वारा किया जाता है कि वे 19 पंपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन सरकरें और उनके द्वारा किया जाता है कि वे 19 पंपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन सरकरें और उनके द्वारा किया जाता है कि वे 19 पंत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन सरकरें और उनके द्वारा किया गाता है कि वे 19 परित एलआईजी श्रेणी के फलेट नंबर 505, मूतल, कोडली घरोली, मयूर विहार, फेज–III, —110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री शोश पाल सिंह के स्वामित्य में है। 5 20.10.2020 अधिकृरी वेधिकारी 21 दिल्ली यूनियम के अधीन निगमित एक प्रतिमूतिक्रे 21 दिल्ली यूनीमिय के अधीन निगमित एक प्रतिमूतिक्रे 21 दर्गित क्र्या खारी के संख्य में तित्या का शि ये राध 31 धिकारी ने विधिन्य के अधीन नियमित किया शि रा 21 वर्णित ऋण खातों के संख्य में तथा उल अधिनिय 21 वर्णित कर्जा तते हेटर के रूप में तथा उल अधिनिय 21 वर्णित कर्ज वतों के इंव्रे में तथा उल को धिनिय 21 वर्णित कर्ज वतों के संख्य में तिया उक अधीन मा 21 वर्णित कर्ज वतारे हेटर के रूप	गाखा कार्यालयः भी कब्जे प्रितिमूति दिव अधोहस्ताक्षरी द्वारा र मस्पत्तियों के प्रतिभ (2002 का 54) और प्रवर्तन) नियम, 2002 2.2019 को डिमांड ने बकुमार सुपुत्र श्री शी	अंक राज्या अजगात अजग	of India काग्रेवेशक रियम विद्यार, दिल्ली—110063 तैयों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गेर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभू शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिना और गारंटर(रो) जिनके नाम, (1) श्र पाल सिंह युपुत्र श्री अर्जुन सिंह व	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: L34102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातव्य: e-s, यूपीएसआ एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन : 09837923893, फैक्स : (0 ई —मेल आईडी : Insilco@evonik वेबसाइट : www.insilcoindia.cor सूयवना एतदद्वारा स्वमन वी जाती है वि म, अनिवार्यसाएं एवं प्रकटीकरण अभेझाएं ते के विनियम 33 के साथ पठित विनिय क में कम्पनी की लेखापरशिसा समिति आ की एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2 साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त हेतु अलेखापरशिस दितीय परिणम	o) २००४ १८६४ ईडीरी इंडरिट्रयल 4223 15924) 252348, .com m b सेबी (सूचीयन वेनियमावर्ली, 2015 म 47 के अनुसरण Iर निदेशक मंडल 1020 को, अन्य के तिमाही/ एइमाही Iो पर विचार एवं
तिथि गारंटर(रो) तथा विशेष रूप से आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि स्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित । नियम, 2002 के नियम 8 के अंतंगत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित पर 20 अक्टूबर 2020 को कब्जा प्राप्त कर लिया है । ।र(रों) और गारंटर(रों) का ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है । तर्(रों) और गारंटर(रों) का ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है । ।र(रों) और गारंटर(रों) और विशेष रूप से आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे । संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी का लेनदेन 31.08.2019 तक नोटिस में उल्लिखित वेय राशि रु. 10,66,171/– क दस लाख छियासठ हजार एक सी इकहतर रुपये) पर व्याज सहित यूनियन ऑफ इंडिया, बी–2 / 15, बी–2 ब्लॉक, पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 के प्रमार के होगा। <u>अवक अमित कुमार सुपुत्र औ शेरा पाल सिंह के रतामिल में है ।</u> क. 20.10.2020 अधिकृत अधिकारी : दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकृत अधिकारी ने विभिन्त बैंका रा 3 के अधीन मिति पर प्रतिमूतिकर एवं पुनर्निर्माण चार्ट की घारा 3 के अधीन सिपा तिया है और प् वर्षात क्रे संख्या में तित्या आसित् राधि क्रिया या तिर्थ संख्य में वित्तीय आसित्यों का ध् वर्णत ऋण खातों के संख्या त्र क अधीन भारतीय अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और प् वर्णित ऋण खातों के संख्य में वित्तीय आसित्यों का ध अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और प् वर्णित ऋण खातों के संख्या त्र व्य वेया ह और क् वर्णित फ़ाया खातों के संबंध में वित्तीय आसित्यों का ध अधिन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में वा वत्ता अधीनया वा धित्य यार्णित कर्जदारों/ सह–कर्जदारों के मांग सुवना जारी	गाखा कार्यालया दी कब्जे (प्रतिमूति हित अधोहस्ताक्षरी द्वारा र 1 सम्पत्तियों के प्रतिभ (2002 का 54) और (2002 का 54) और 202019 को डिमांड नं 1 कुगार सुपुत्र श्री श्री 3.2019 तक नोटिस सठ हजार एक सौ	अंक राष्ट्रम अगलगा A surrent A surrent of a surrent of a surrent A surrent of a surrent of a surrent a surrent of the surrent of a surrent (तिकरण एवम पुनर्निर्माण अ अधिनियम बैंक ऑफ इंडिया (तिकरण एवम पुनर्निर्माण अ अधिनियम की धारा 13(12) के नियम 3 के अंतंगत प्रदत्ता दिस जारी कर कर्जदार(रॉ) या पाल सिंह (2) श्री शीश मं उल्लिखित देय राशि रु. इकहत्तर रुपये) का व्याज	of India कार्योदेशन के किस्टे का अधिकृत अधिकारी होने के नात तैर्यों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात तैर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय- के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभू शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिना और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श् पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व पाठ,66,171/ – (केवल दस लाप सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व	(A Member of Evonik Industrise Group, CIN: L34102UP198BPLC010141 पंजी, कार्यातच: ए, यूपीएसका एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन: 09837923983, फेक्स: (0 ई–मेल आईडी: Insilco@evonik वेबसाइट: www.insilcoindia.cor प्रत्यद्वाप सूचना दी जाती है वि त, एतदद्वाप सूचना दी जाती है वि त, एतदद्वाप सूचना दी जाती है वि तो के विनियम 33 के साथ पठित विनिय के कि कि विनियम 33 के साथ पठित विनिय की एक वेवक सोमवार 0.2 वनवम्द, 1 ती, साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त को एक बेवक सोमवार, 02 वनवम्द, 1 साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त को से लेखापरीक्षत वित्तीय परिणम अभिलेखबद्ध करने हेतु आयोजित की य ह सूचना कम्पनी क	p) २००० १८ वस्ते ईडीसी इंडरिट्रयल 14223 155924) 252348, .com m b से से (पूर्वीयन वेत्रियमवर्त्त, 2015 म 47 के अनुसरण !र निदेशक मंडल 2020 को, अन्य के तिमाही ∕ छमाही ते पही / छमाही ते य बसा इ ट
स्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित । नियम, 2002 के नियम 8 के अंतंगत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित । पर 20 अक्टूबर 2020 को कब्जा प्राप्त कर लिया है । ।र(रों) और गारंटर(रों) का ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है । ।र(रों) और गारंटर(रों) और विशेष रूप से आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे । संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी का लेनदेन 31.08.2019 तक नोटिस में उल्लिखित देय राशि रु. 10,66,171 / – का दस लाख छियासठ हजार एक सौ इकहतार रुपये) पर व्याज सहित यूनियन ऑफ इंडिया, बी–2 / 15, बी–2 ब्लॉक, पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 के प्रमार के होगा । <u>अचल सम्पत्तियों के विवरण</u> निर्मित एलआईजी श्रेणी के पलैट नंबर 505, भूतल, कॉडली घरोली, मयूर विहार, फेज–III, –110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री श्री पाल सिंह के रवामित्व में है । क: 20.10.2020 अधिकृत अधिकृत अधिकारी : दिल्ली यूनिमन बैंक ऑफ इंडिया आधिकृत अधिकारी ने विभिन्न बँकों से ग्रेष्टण प्रत्न पूत्तिकर एवं पुनर्निर्माण चार्ट की घारा 3 के अधीन मारतियों व अधिकृत आधिकारी अधिकारी ने विभिन्न बँकों से ऋण्य प्राप्त किया है और प्रं वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आसितयों का ह अधीन प्रतिभूती ने विभिन्न बँके आफ इंडिया यार्थित कर्जवारों / सह–कर्जवारों के मंत्रा उक्त अधीनि माराय	गाखा कार्यालयः भी कब्जे [प्रतिमूति हित अधोहस्ताक्षरी द्वारा र म सम्पत्तियों के प्रतिग (2002 का 54) और (2002 का 54) और 20019 तक नोटिस सठ हजार एक सौ ब से 60 दिनों के भीतर	अंक रोग्या अग्रम्मा Arean-and and and and and and and and and and	of India कार्योदेशका अंध्र विद्यम विद्वार, दिल्ली—110063 तैर्यों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गैर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय के अंर्तगत उसके सहपठित प्रतिभू शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिना और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श्र पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171 / – (केवल दस लाप सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व ई है।	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: L34102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातवा: ए	p) ठा ठा ठा ठा ठा ठा ईडीसी इंडरिंट्रयल 4223 55924) 252348, 55924) 252348, com 1 1 वेष्यगवर्ल, 2015 म 47 के अनुपरण 1 1 तेष स्ता इ ट 1 रच स्ता इ ट <
पर 20 अक्टूबर 2020 को कब्जा प्राप्त कर लिया है। ार(रों) और गारंटर(रों) का ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है । ार(रों) और गारंटर(रों) और विशेष रूप से आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे 1 संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी का लेनदेन 31.08.2019 तक नोटिस में उहिलखित देय राशि रु. 10.66.171/– म दस लाख छियासठ डजार एक सौ इकहतर रुपये) पर व्याज सहित यूनियन ऑफ इंडिया, बी–2 ⁄15, बी–2 ब्लॉक, पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 के प्रभार के होगा । <u>अवल सम्पत्तियों के विवरण</u> निर्मित एलआईजी श्रेणी के पलैट नंबर 505, भूतल, कॉडली घरोली, मयूर विहार, फंज–III, –110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री शारा पाल सिंह के स्वामित्व में है । क: 20.10.2020 अधिकृत अधिकारी : दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आधिकरि ने विभिन्न बॅंकों से ऋण प्राप्त किया है और द वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधिकारी ने विभिन्न बॅंकों से ऋण प्राप्त किया है और द वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधिकारी ने विभिन्त बॅंकां से क्रप्तम 2 के अधीन मग्रा वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आर्तरायों का ध अधिकारी ने विभिन्न बॅंकों से ऋण प्राप्त किया है और द वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आर्तरायों का ध अधिकारी ने विभिन्न बॅंकों से खा उत्त अधिनिय (प्रवर्तन) नियमावती, 2002 के नियम 2 के अधीन मग्र वर्णित कर्जदारों / सह–कर्जदारों को मांग सूचना जारी	गाखा कार्यालया दी कब्जे प्रितिमूति हित अधोहस्ताक्षरी द्वारा र म सम्पत्तियों के प्रतिभ (2002 का 54) और (2002 का 54) और प्रवर्तन) नियम, 2002 9.2019 तक नोटिस सठ हजार एक सौ ब से 60 दिनों के भीतर ार(रों) और गारंटर(रों	अंक राष्ट्रम A MUNITA A MUNITA A MUNITA	of India कुग्पेहेशुल कुग्पेहेशुल उंटमा विद्यार, दिल्ली—110063 त्तेयों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात तैर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय- के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभूा शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिना और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श् पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व पाठ,66,171/ – (केवल दस लाप सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व ई है। ने में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: L34102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातच: ए-5, यूपीएसआ, एसटेट, भारतीयग्राम, गजरोला-24 फोन: 09837923883, फेक्स : (0 ई -मेल आईडी: Inisilco@evonik वेबसाइट : www.insilcoindia.cor स्युवना एतद्वारा स्वमा वी जाती है वि म, अनिवार्यसाएं एवं प्रकटीकरण अभेझाए) वि ते के विनियम 33 के साथ पति निनियम के विनियम 33 के साथ पति निनियम के विक्र वेक सोमवार, 02 नवमबर, 2 की एक बैठक सोमवार, 02 नवमबर, 2 की स्वाय 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त की एक बैठक सोमवार, 02 नवमबर, 2 की स्वाय 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त की वेबसाइट www.bseindia.com प सकती है। की तिथि : अबद्वुबर, 26, 2020	b) Non 8 class ईडीसी इंडरिट्रयल (4223 (5924) 252348, com n 1 वेनियमावली, 2015 म 47 के अनुपरण (प निवेशक मंडल (2020 को, अन्य के तिमाही/ एछमाही ते पर विवार एवं जाएगी। वे ब सा इ ट वे ब स्टॉक एक्सचेज गर भी देखी जा न रि सिटेड हरसा. / –
पर (रॉ) और गारंटर(रॉ) का ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है । (र(रॉ) और गारंटर(रॉ) और विशेष रूप से आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी का लेनदेन 31.08.2019 तक नोटिस में उल्लिखित देय राशि रु. 10,66,171 / – म दस लाख छियासठ डजार एक सौ इकहतर रुपये) पर व्याज सहित यूनियन ऑफ इंडिया, बी–2 / 15, बी–2 ब्लॉक, पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 के प्रभार के होगा । <u>अवल सम्पत्तियों के विवरण</u> निर्मित एलआईजी श्रेणी के फलैट नंबर 505, भूतल, कॉडली घरोली, मयूर विहार, फेज–III, –110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री शीश पाल सिंह के स्वामित्व में है । कृ: 20.10.2020 <u>अधिकृत अधिकृत अधिकृती</u> (इंडिया) ले देलल्ली यूनियन बेंक ऑफ इंडिया अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और प्र वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधिकारी ने विभिन्न ब्रें से अधान नियमित एक अधीन नियाय तिय आस्तियों का ध अधिकारी ने विभिन्न क्रें से प्रथा प्राप्त किया है और प्र वार्णित कर्जवारों / सह–कर्जवारों का मंग सूचना जारी	गाखा कार्यालयः भी कब्जे (म्रतिमूति हित अधोहस्ताक्षरी द्वारा र (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2009 को डिमांड ने कुगार सुपुत्र श्री श्री 2.2019 तक नोटिस स्तठ हजार एक सी । से 60 दिनों के भीतर पर्(से) और गारंटर(सें स्ताक्षरी ने कथित आ	अंक राष्ट्रम अक्रम अक्रम अक्रम अक्रम अक्रम अक्रम अक्रम का नोटिस (अचल सम्पा का नाटिस	of India अपूर्णसम् स्वय दिहार, दिल्सी—110063 रियों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गौर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिया के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभूति शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनां और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श् पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171/- (केवल दस लाप सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व र्छ्र है। ने में विफल रहे हैं, इसलिये एतदद्वा जनता को नोटिस दिया जाता है, ति –धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि	(A Member of Evonik Industrise Group, CIN: 134102UP198BPLC010141 पंजी, कार्यातच: ए5, यूपीएसआ, एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन: 09837923939, फेक्स: (0 ई–मेल आईडी: Insilco@evonik वेबसाइट: www.insilcoindia.com प्रत्यद्वापा स्वन्ना दी जाती है वि तु, एतद्वापा स्वन्ना दी जाती है वि तो, एतद्वापा स्वन्ना दी जाती है वि तो कंपनि वेवक सोमवार एवं प्रकटीकरण ओसाएं ति तो कंपनियम 33 के साथ पठित विनिय्म क में कंप्पनी की लेखापरीक्षा समिति औ की एक वेवक सोमवार 02 नवम्बर, 1 साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त को सेलेखबद्ध करने हेतु आयोजित की य ह सूचना क म्पनी क भास्य व्य क्रियाबद्ध करने हेतु आयोजित की य ह सूचना क म्पनी की वेवसाइट www.bseindia.com स्वार्त्ता है। वास्ते इन स्वान: नई दिल्ली (कप्पनी साविव और अन्	b) 5000000000000000000000000000000000000
(र्स्(रों) और गारंटर(रों) और विशेष रूप से आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी का लेनदेन 31.08.2019 तक नोटिस में उल्लिखित देय राशि रु. 10.66,171 / – म दस लाख छियासठ डजार एक सौ इकहतर रुपये) पर व्याज सहित यूनियन ऑफ इंडिया, बी–2 / 15, बी–2 ब्लॉक, पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 के प्रभार के होगा। अवल सम्पत्तियों के विवरण निर्मित एलआईजी श्रेणी के फ्लैट नंबर 505, भूतल, कॉडली घरोली, मयूर विहार, फेज–III, –110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री शीश पाल सिंह के स्वामित्व में है। 5: 20.10.2020 अधिकृत अधिकारी : दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिन आर्यात के अधीन निगमित एक प्रतिमूतिकर एवं पुनर्निर्माण चार्ट की धारा 3 के अधीन भारतीय ने अधिकारी ने विभिन्न बैंकां से ऋण प्राप्त किया है और प्र वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में विधा उसके प्रांतिय में हा	ारसा कार्यालयः दी कब्जे प्रितिमूति हित अधोहस्ताक्षरी द्वारा र (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2003 का डिमांड ने (कुमार सुपुत्र श्री श (2019 तक नोटिस सठ हजार एक सौ (से 60 दिनों के भीतर (रों) और गारंटर(रों (रों) और गारंटर(रों (नेयम, 2002 के निय	अंक राष्ट्रा अक्रियाय अक्रियाय अक्रियाय अक्रियाय अक्रियाय अक्रियाय अक्रियाय (प्रवर्तन) नियमावली, 2 प्रियन बैंक ऑफ इंडिया (तिरुपा एवम पुनर्निर्माण अ आधिनियम की धारा 13(12) के नियम 3 के अंर्तगत प्रदत्त रिस जारी कर कर्जवार(रों) शा पाल सिंह (2) श्री शीश में उल्लिखित देय राशि रु. इकहत्तर रुपये) का व्याज भुगतान करने की मांग की ग) देय राशि का भुगतान करने वेयियम की धारा 13 की उप- म 8 के अंर्तगत उसे प्रदत्त शा	of India कार्यादेशका रियम विदार, दिल्ली—110063 त्तियों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गैर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिया के अंर्तगत उसके सहपठित प्रतिभूति शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनां और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श्र पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171 / – (केवल दस लाग सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व ाई है। ने में विफल रहे हैं, इसलिये एतवद्वाा जनता को नोटिस दिया जाता है, ति- —्यारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि क्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि	(A Member of Evonik Industrise Group, CIN: 134102UP198BPLC010141 पंजी, कार्यातच: ए5, यूपीएसआ, एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन: 09837923939, फेक्स: (0 ई–मेल आईडी: Insilco@evonik वेबसाइट: www.insilcoindia.com प्रत्यद्वापा स्वन्ना दी जाती है वि तु, एतद्वापा स्वन्ना दी जाती है वि तो, एतद्वापा स्वन्ना दी जाती है वि तो कंपनि वेवक सोमवार एवं प्रकटीकरण ओसाएं ति तो कंपनियम 33 के साथ पठित विनिय्म क में कंप्पनी की लेखापरीक्षा समिति औ की एक वेवक सोमवार 02 नवम्बर, 1 साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त को सेलेखबद्ध करने हेतु आयोजित की य ह सूचना क म्पनी क भास्य व्य क्रियाबद्ध करने हेतु आयोजित की य ह सूचना क म्पनी की वेवसाइट www.bseindia.com स्वार्त्ता है। वास्ते इन स्वान: नई दिल्ली (कप्पनी साविव और अन्	b) 5000000000000000000000000000000000000
र संपत्ति के साथ किंसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी का लेनदेन 31.08.2019 तक नोटिस में उल्लिखित देय राशि रु. 10,66,171/– न दस लाख छियासठ डजार एक सौ इकहत्तर रुपये) पर व्याज सहित यूनियन आ फ इंडिया, बी–2/15, बी–2 ब्लॉक, पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 के प्रभार के होगा। <u>अवल सम्पत्तियों के विवरण</u> निर्मित एलआईजी श्रेणी के पलैट नंबर 505, भूतल, कॉडली घरोली, मयूर विहार, फेज–III, –110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री शीश पाल सिंह के स्वामित्व में हैं। <u>कार 20.10.2020 अधिकृत अधिकारी</u> : <u>दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया</u> अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और प् वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और प् वर्णित कर्जवारों / सह–कर्जवारों को मांग सूचना जारी	गाखा कार्यालयः दी कब्जे प्रितिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा र (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2003 का डिमांड ने (2001 तक नोटिस स्राठ हजार एक सौ र से 60 दिनों के भीतर (रों) और गारंटर(रों (रों) और गारंटर(रों (नियम, 2002 के निय पर 20 अक्टूबर 20 (गर(रों) और गारंटर(रों)	भोक राष्ट्रमा	of India कार्युप्रेशक रियम विदार, दिल्ली—110063 त्तैयों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गैर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिया के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभू शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनां और गारंदर(रों) जिनके नाम, (1) श्र पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10.66,171/- (केवल दस लास सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व ाई है। ने में विफल रहे हैं, इसलिये एतवद्वा जनता को नोटिस विया जाता है, ति- न्यारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि कियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि ॥ है।	(A Member of Evonik Industrise Group, CIN: 134102UP198BPLC010141 पंजी, कार्यातच: ए5, यूपीएसआ एसटेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन: 09837923939, फेक्स: (0 इं–मेल आईडी: Insilco@evonik वेबसाइट: www.insilcoindia.com एतदद्वापा स्वना दी जाती है वि अनिवार्यप्तार स्वना दी जाती है वि ते, एतद्वापा स्वना दी जाती है वि ते के विनियम 33 के साथ पठित विनिय- के स्वाय- के स्वाय-त्वा स्वाय- के स्वाय- ते के स्वाय- ते के स्वाय- ते के स्वाय- ते के स्वाय- ते स्वाय- ते के स्वाय- ते स्वाय	b) 5000000000000000000000000000000000000
का लेनदेन 31.08.2019 तक नोटिस में उल्लिखित देय राशि रू. 10.66,171/– त दस लाख छियासठ डजार एक सौ इकहतर रुपये) पर व्याज सहित यूनियन ऑफ इंडिया, बी–2/15, बी–2 ब्लॉक, पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 के प्रभार के होगा। <u>अवल सम्पत्तियों के विवरण</u> निर्मित एलआईजी श्रेणी के फ्लैट नंबर 505, भूतल, कॉडली घरोली, मयूर विहार, फेज–III, –110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री शीश पाल सिंह के स्वामित्व में है। क: 20.10.2020 अधिकृत अधिकारी : दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी ने विभिन्न बॅंकों से ऋण प्राप्त किया है और प्र वर्षित कर्रायों ने विभिन्न बॅंकों से ऋण प्राप्त किया है और प्र वर्षित के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा उक्त अधीन प्राप्त (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के अधीन प्राप्त	गाउंग कार्यालयः वी कब्जे प्रितिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा र (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2003 का डिमांड ने (2001 तक नोटिस स्ठ हजार एक सी उ2019 तक नोटिस स्ठ हजार एक सी (वे से 60 दिनों के भीतर सर्राक्षरी ने कथित अगि (नेयम, 2002 के निय (पर 20 अक्टू बर 20 (पर्(रो) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा	भोक राष्ट्रमा 3 Alward 4 Alward 5	of India कार्यादेशका त्रियम दिहार, दिल्ली—110063 त्तेयों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात तेर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिया के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभूति शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनां और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श्र पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171/- (केवल दस लाग सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व ाई है। ने में विफल रहे हैं, इसलिये एतवद्धा न्वारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि त्वियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि ॥ है। को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय है।	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: L34102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातच: ए-5, यूपीएसआः एसटेट, भारतीयग्राम, गजरोला-24 फोन: 09837923883, फैक्स : (0 ई -मेल आईडी: Inisilco@evonik वेबसाइट : www.insilcoindia.com स्प्रवना एतद्वारा स्वन्त वी जाती है वि म, अनिवार्यसाएं एवं प्रकटीकरण अभ्वाणे वि ते के विनियम 33 के साथ पति विनिय म, अनिवार्यसाएं एवं प्रकटीकरण अभ्वाणे वि ते के विनियम 33 के साथ पति विनिय के एक बैठक सोभवार, 02 नवम्बर, 2 की स्वाय 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त की वेबसाइट www.bseindia.com स्वाय अगिलेखबद्ध करने हेतु आयोजित की या स सूचना कम्पनी की खास इन्द्र की वेबसाइट www.bseindia.com स्वाय : नई दिल्ली त के	b) 5000000000000000000000000000000000000
ऑफ इंडिया, बी−2 / 15, बी−2 ब्लॉक, पश्चिम विहार, दिल्ली−110063 के प्रभार के होगा। तर्मित एलआईजी श्रेणी के पलैट नंबर 505, भूतल, कोंडली घरोली, मयूर विहार, फेज−III, -110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री शीश पाल सिंह के रवामित्व में है। क: 20.10.2020 अधिकृत अधिकारी : दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और प् वधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और प् वर्षित प्रण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधिकारी ने विभिन्न ब्रैंकों से स्वेण योर्ट की धारा 3 के अधीन भारतियां का ध अधिकारी ने विभिन्न ब्रैंकों से स्वेण योर्ट की धारा 3 के अधीन भारतियां का ध अधिकारी ने विभिन्न ब्रैंकों से स्वेण्य अधीन यारतीय गांतियां का ध अधिन प्रतिभूत क्रेंडियर के रूप में तथा उक्त अधीन प्रा	गाउंग कार्यालयः 1 कब्जे प्रितिमूति हित अधोहस्ताक्षरी द्वारा र । सम्पतियों के प्रतिग (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2003 का डिमांड ने । कुमार सुपुत्र श्री शै).2019 तक नोटिस स्राठ हजार एक सौ । त्यम, 2002 के निय पर 20 अक्टूबर 20 ।र(रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा ।र(रों) और गारंटर(रों)	भोक राष्ट्राय 1 मार्गि 1 मार्गि 2 15 वी-2 ब्लॉक परि का नोटिस (अचल सम्पर्गि 1 (प्रवर्तन) नियमावली, 2 1 वियम वैंक ऑफ इंडिया (तिकरण एवम पुनर्निर्माण अ आधिनियम की धारा 13(12) के नियम 3 के अंतंगत प्रवत्त टिस जारी कर कर्जवार(रॉ) श पाल सिंह (2) श्री शीश में उल्लिखित देय राशि रु. इकहत्तर रुपये) का व्याज भुगतान करने की मांग की ग) देय शाशि का भुगतान करन्) तथा शि का भुगतान करन् दोनियम की धारा 13 की उप- म 8 के अंर्तगत उसे प्रदत्त शो (20 को कब्जा प्राप्त कर लिय का ध्यान, आरक्षित संपत्तियो 13 की उप-धारा (8) के प्राव और विशेष रूप से आम ज-	of India कागुंग्रेशुम्ब कागुंग्रेशुम्ब कागुंग्रेशुम्ब देयम विदार, दिल्ली—110063 त्तेयों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गैर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिया के अंतरेगत उसके सहपठित प्रतिभू शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनां और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श्र पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10.66,171/- (केवल दस लास सहित कथित नोटिस विया जाता है, ति- बारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि कियों का प्रयोग करते हुए नोब वर्णि ा है। i को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय i धानों पर आमंत्रित किया जाता है। नता को सावधान किया जाता है कि	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातवा: e-5, यूपीएसआः एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन : 09837923883, फैक्स : (0 ई – मेल आईडी : Insilo@evonik वे बसाइट : www.insilocindia.cor सूयवाा एतदद्वारा स्वन्य तो जाती है वि न, उननिवार्यप्ताएं एवं प्रकटीकरण अभेषाएं) ति के विनियम 33 के साथ पठित विनिया के विनियम 33 के साथ पठित विनिया के विनियम 33 के साथ पठित विनिया के विजयम 33 के साथ पठित विनिया की एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2 साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणम बा अभिलेखबद्ध करने हेतु आयोजित की यह सूचना कम्पनी क www.lisilocindia.com पर लाथ बॉम की वेबसाइट www.bseindia.com सकती है। वा स्ते इन् ति (कम्पनी सचिव और अन् त	b) 5000000000000000000000000000000000000
होगा। अचल सम्पत्तियों के विवरण निर्मित एलआईजी श्रेणी के फलैट नंबर 505, भूतल, कॉडली घरोली, मयूर विहार, फंज–III, –110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री शीश पाल सिंह के स्वामित्व में हैं। क: 20.10.2020 अधिकृत अधिकारी : दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी ने विभिन्न बेंकों से ऋण प्राप्त किया है और द वर्षित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधिकारी ने विभिन्न बेंकों से ऋण प्राप्त किया है और द वर्षित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा उक्त अधिनिय (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के अधीन मारा जारी	गाखा कार्यालयः 1 किन्ने प्रितिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा र म सम्पत्तियों के प्रतिम् (2002 का 54) और (2003 का 54) और (2009 तक नोटिस सठ हजार एक सौ व. से 60 दिनों के भीतर सराक्षरी ने कथित औ (नियम, 2002 के निय पर 20 अक्टूबर 20 पर 20 स्ट्रिक के निये मार्थ का लेनदेन 31.08.2	भोक रोग	of India कुग्पेहेशुक्त उंटमा विद्वार, दिल्ली—110063 त्तेयों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात तेर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभू शक्तियों का प्रयोग करते हुए निये गाउँ रारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श्र पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171 / – (केवल रस ला र सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व राई है। ने में विफल रहे हैं, इसलिये एतदद्वा जनता को नोटिस दिया जाता है, ति –धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि कियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि ॥ है। कं छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय : धानों पर आमंत्रित किया जाता है। नता को साक्धान किया जाता है कि और उनके द्वारा किया गया किसी प खित देय राशि रू. 10,66,171 /	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातव्य: e-, यूपीएसआ एसटेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन : 09837923893, फेक्स : (0 इं–मेल आईडी : Insito@evonik वेबसाइट : www.insitoionidia.com सुचना एतदद्वारा सूचना दी जाती है वि अनिवर्ध्वारपं एव प्रकटीकरण अदेखाएं) ते ते कं विनियम 33 के साथ पठित विनियम में कंप्पनी की लेखापरीक्षा समिति औ की एक वेठक सोमवार, 02 नवस्य, 2 की संकप्पनी की लेखापरीक्षा वित्तीय परिणमा डेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणमा डेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणमा डेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणमा डेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणमा रा सह सूचना क रूपनी क्र www.insilcoindia.com पर तथा बॉम्प की वेवसाइट www.bseindia.com रा सकती है। बा सत्ते इ तिथि : अक्ट्रबर, 26, 2020 स्थान : नई दिल्ली त	b) 5000000000000000000000000000000000000
निर्मित एलआईजी श्रेणी के फ्लैट नंबर 505, भूतल, कॉडली घरोली, मयूर विहार, फेज–III, –110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री शीश पाल सिंह के स्वामित्व में है । कः 20.10.2020 अधिकृत अधिकारी : दिल्ली यूर्नियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और प् वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधिन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा उक्त अधीन प्राप्त (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के अधीन प्राप्त	ारखा कार्यालयः दी कब्जे प्रितिमूति हिस अधोहस्ताक्षरी द्वारा र 1 सम्पत्तियों के प्रतिम् (2002 का 54) और 1 त्या को जिमांड ने 2019 तक नोटिस स्रव हजार एक सौ 1 से 60 दिनों के भीतस् स्रवाक्षरी ने कथित औ रार(रों) और गारंटर(रों नियम, 2002 के निय पर 20 अक्टूबर 20 पर 20 अक्टूबर 20 पर (ये) अरेग गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा पर(रों) और गारंटर(रों) मं जा लेनदेन 31.08.2 ज दस लाख छियास	भौक रोग C MINITA A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	of India कुग्पेहेशुल कुग्पेहेशुल दियम विदार, दिल्ली—110063 त्तेयों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गेर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय- के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभूति शाक्तियों का प्रयोग करते हुए विना और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श् पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171 / – (केवल दस ला स सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व राई है। ने में विफल रहे हैं, इसलिये एतदृद्वा जनता को नोटिस दिया जाता है, ति –्यारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि कियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि ा है। ं को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय : धानों पर आमंत्रित किया जाता है। नता को सावधान किया जाता है। वित्त देय राशि रु. 10,66,171 / ार रुपये) पर व्याज सहित यूनिय	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP198BPL:0010141 पंजी, कार्यातवा: ए5, पूपीएसआ एसटेट, भारतीयग्राम, गजरोला24 फोन : 09837923893, फैक्स : (0 इंगेल आईडी : Insito@evonik वेबसाइट : www.insitocindia.com एतदद्वारा सूचना दी जाती है वि अनिवार्द्यारा सूचना दी जाती है वि तो के विनियम 33 के साथ पठित विनियम के विनियम 30 के सामाप्त के विनियम 30 के सामाप्त के विनियम 30 के सामाप्त के विनियम 30 के सामाप्त के विनियम 30 के साथ पठित विनियम के विनियम 30 के साथ पठित विनियम के विनियम 38 के साथ पठित विनियम के कि विनियम 38 के साथ पठित के साथ प्रधान के स्वान के प्रधान के स्वान : नई दित्ली त के कि	b) 5000000000000000000000000000000000000
110096, जो विधिवत श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री शौश पाल सिंह के स्वामित्त में है। क: 20.10.2020 अधिकृत अधिकारी : दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकहत अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और प् वर्णित ऋण खातों के संबंध में विस्तीय आस्तियों का ध अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा उक्त अधीन प्राप्त प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के अधीन प्राप्त यार्णित कर्जदारों / सह-कर्जदारों को मांग सूचना जारी	पाखा कार्यालयः की कब्जे (मृतिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा र (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2003 का डिमांड ने (2001 को डिमांड ने (2001 को डिमांड ने (2001 तक नीटिस स्रत हजार एक सौ (2019 तक नीटिस स्रत हजार एक सौ (1 व्यम, 2003 के नीवर पर 20 अक्टूबर 2(रा(रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा (र्रा) और गारंटर(रों) में उन लेन देन 31.08.2 म दस लाख छिया ऑफ इंडिया, बी–2.	भौक रोग C MINITA A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	of India कुग्पेहेशुल कुग्पेहेशुल दियम विदार, दिल्ली—110063 त्तेयों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गेर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय- के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभूति शाक्तियों का प्रयोग करते हुए विना और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श् पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171 / – (केवल दस ला स सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व राई है। ने में विफल रहे हैं, इसलिये एतदृद्वा जनता को नोटिस दिया जाता है, ति –्यारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि कियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि ा है। ं को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय : धानों पर आमंत्रित किया जाता है। नता को सावधान किया जाता है। वित्त देय राशि रु. 10,66,171 / ार रुपये) पर व्याज सहित यूनिय	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP198BPL:0010141 पंजी, कार्यातवा: ए5, पूपीएसआ एसटेट, भारतीयग्राम, गजरोला24 फोन : 09837923893, फैक्स : (0 इंगेल आईडी : Insito@evonik वेबसाइट : www.insitocindia.com एतदद्वारा सूचना दी जाती है वि अनिवार्द्यारा सूचना दी जाती है वि तो के विनियम 33 के साथ पठित विनियम के विनियम 30 के सामाप्त के विनियम 30 के सामाप्त के विनियम 30 के सामाप्त के विनियम 30 के सामाप्त के विनियम 30 के साथ पठित विनियम के विनियम 30 के साथ पठित विनियम के विनियम 38 के साथ पठित विनियम के कि विनियम 38 के साथ पठित के साथ प्रधान के स्वान के प्रधान के स्वान : नई दित्ली त के कि	b) 5000000000000000000000000000000000000
अधिकृत अधिकारी कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित एक प्रतिभूतिकर : दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं पुनर्निर्माण चार्ट की धारा 3 के अधीन भारतीय अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और द वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा उक्त अधीनया (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के अधीन प्राप्त	पाखा कार्यालय: वी कब्जे (मृतिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा र (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2003 का 54) और (2003 का डिमांड ने (2004 का डिमांड ने (2004 का डिमांड ने (यदर्तन) नियम, 2002 (यदर्ग) और गारंटर(सें (से 60 दिनों के शीतर सं 60 दिनों के शीतर (सं 20 अक्टू बर 20 (स्(रों) और गारंटर(सें) में अधिनियम की धारा (स्(रों) और गारंटर(सें) संपत्ति के साथ किस् का लेनदेन 31.08.2 का दस लाख छिया आंफ इंडिया, बी–2, होगा।	भोक राष्ट्रमा C. 15 वी-2 व्लॉक परि का नोटिस (अचल सम्पा त (प्रवर्तन) नियमावली, 2 प्रिम्तन्व वैंक ऑफ इंडिया [तिकरण एवम पुनर्निर्माण अ आधिनियम की धारा 13(12) के नियम ३ के अंतंगत प्रदत्त रिस जारी कर कर्जवार(रों) शा पाल सिंह (2) श्री शीश में उल्लिखित देय राशि रु. इकहत्तर रुपये) का व्याज भुगतान करने की मांग की ग) देय राशि का भुगतान करने) तथा शिका भुगतान करने वेत्य राशि का भुगतान करने वेत्य राशि का भुगतान करने वेत्य राशि का भुगतान करने वेत्र विशेष रूप से आम ज वेत्य राशि कर परे प्रदत्त शा 20 को कब्जा प्राप्त कर सिय का ध्यान, आरक्षित संपत्तियो 13 की उप-धारा (8) के प्राव और विशेष रूप से आम ज हे द्रकार रुम से उल्लि 13 की टप-धारा (8) के प्राव और विशेष रूप से आम ज ो प्रकार का लेनदेन मत करें 2019 तक नोटिस में उल्लि 15, बी-2 ब्लॉक, पश्चिम	of India कार्युप्रेस्म कार्युप्रेस्म त्रिया दिहार, दिल्ली—110063 त्रियां के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गौर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिया के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभूति शक्तियां का प्रयोग करते हुए दिनां और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श्र पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171/— (केवल दस लाभ सहित कथित नोटिस विया जाता है, ति –धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि ॥ है । को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय व धानों पर आमंत्रित किया जाता है । नता को नावधान किया जाता है कि और उनके द्वारा किया गया किसी खित देय राशि रू. 10,66,171/ (र रुपये) पर व्याज सहित यूनिय विहार, दिल्ली—110063 के प्रमार जिया	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: L34102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातवा: e-5, यूपीएसआः एस्टेट, भारतीयग्राम, राजरोला–24 फोन : 09837923893, फैक्स : (0 ई — मेल आईडी : Inislo@evonik वेबसाइट : www.insilcoindia.cor सुवना एतदद्वारा स्वन्न वी जाती है वि म, अनिवार्य्प्ताएं एवं प्रकटीकरण अभेहाएं ते के विनियम 33 के साथ परित विनिया के विनियम 33 के साथ परित विनिया के विजयम 33 के साथ परित विनिया के एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2 की एक बैठक प्रसाय के के साथ परित विनिया स्वाय 30 सितम्बर, 2020 के समाप्त की वेबसाइट www.bseindia.com प सकती है। बास्ते प्र की वेवसाइट www.bseindia.com प सकती है। बास्ते प्र की विसाय अप्रसुद्ध, 2020 स्थान : नई वित्ली त (कम्पनी सचिव और अन् त	 b) Non 8 class c) Non 8 class (4223 (4223 (5924) 252348, (com m b सेबी (सूवीयन वेनियमावर्ल, 2015 म 47 के अनुसरण (17) पि निदेश मंडल (2020 को, अन्य के तिमाही) (छमाही) ते ब सा इ ट वे स्टॉक एक्सरोज जार पी वे ब सा इ ट वे स्टॉक एक्सरोज जार पी वे ब सा इ ट वे स्टॉक एक्सरोज जार पी वे ब सा इ ट वे स्टॉक एक्सरोज जार पी वे ब सा इ ट वे स्टॉक एक्सरोज जार पी वेखी जा नसिल्की लिमिटेड इस्ता, /- स्वाति सुरहेतिया (पालन अधिकारी)
अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और प वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा उक्त अधिनिय (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के अधीन प्रा वर्णित कर्जदारों / सह–कर्जदारों को मांग सूचना जारी	पाडाा कार्यालयः वी किन्दो प्रितिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा र (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2003 का 54) और (2003 का डिमांड ने कुमार सुपुत्र श्री शी (2019 तक नोटिस स्राठ हजार एक सौ व से 60 दिनों के भीतर (स्राक्षरी ने कथित आ (त्रेंगे) और गारंटर(सें) (नियम, 2002 के निय पर 20 अक्टूबर 20 (पर (ये) और गारंटर(सें) में अधिनियम की धारा (परं) और गारंटर(सें) में स्राचि के साथ किस् का लेनदेन 31.08.2, न दस लाख छियास कॉफ इंडिया, बी–2, होगा।	अंक राष्ट्रा 1 अंग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 वा नोटिस (अचल सम्पा 1 (प्रवर्तन) नियमावली, 2 1 विंग्रे 1 2 रॉफ इंडिया (तिकरण एवम पुनर्निर्माण अ आधिनियम की धारा 13(12) अधिनियम की धारा 13(12) रा पाल सिंह (2) श्री शीश में उल्लिखित देय राशि रु. इकहतर रुपये) का व्याज भुगतान करने की मांग की ग) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने विंग्यम की धारा 13 की उप- म 8 के अंर्तगत उसे प्रदत्त शा 10 को कब्जा प्राप्त कर लिय का ध्यान, आरक्षित संपत्तियो 13 की उप-धारा (8) के प्राव और विशेष रूप से आम ज- ो प्रकार का लेनदेन मत करें 2019 तक नोटिस में उल्लि 1 उत्यत रामपतियों के पि ग के पलैट नंबर 505, भूतल,	of India कार्युप्रेश्म कार्युप्रेश्म दियम दिहार, दिल्ही—110063 त्तैयों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गैर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिया के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभू शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनां और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श्र पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10.66,171 / – (केवल दस लास सहित कथित नोटिस विया जाता है, ति- ्यारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि कियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि ा है । के छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय : धानों पर आमंत्रित किया जाता है, ति- नाता को सावधान किया जाता है कि और उनके द्वारा किया नाता है कि और उनके द्वारा किया जाता है कि तिर क्र प्र या ति स्वरा निय दिवरा वे प्र लिरि म्यूर विहार, फेज—।	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातवा: e-5, यूपीएसआः एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन : 09837923883, फैक्स : (0 ई — मेल आईडी : Insilo@evonik वे बसाइट : www.insilocindia.cor सूयवाा एतदद्वारा स्वन्य ती जाती है वि न, अनिवार्यप्ताएं एवं प्रकटीकरण अभेषाऐ ति के विनियम 33 के साथ पठित विनिया के विनेयम 33 के साथ पठित विनिया की एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2 की की एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2 की एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2 की एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2 की विनेयम 33 के साथ पठित विनिया की एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2 की यह सूचना करपनी की आसोडांठातीय.com पर तथा बॉम की बेबसाइट www.bseindia.com प सकती है। वास्ते इन ति खि ब्लदूबर, 26, 2020 रच्यान : नई दिल्ली त (कम्पनी सचिव और अन् त	b) अग्रे उद्येव ईडीसी इंडरिट्रयल (4223 (5924) 252348, com m b सेबी (सूवीयन वेनियमावर्ल, 2015 म 47 के अनुसरण (निदेशक मंडल (रामडी / छमाही ते पत विवार एव जाएगी। ो वे बसा इ ट बे स्टॉक एक्सचेज जाएगी। वे बे सा इ ट बे स्टॉक एक्सचेज जार भी देखी जा नरित्ति हु स्टेक्सिया (पालन अधिकारी)
वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का ध अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा उक्त अधिनिय (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के अधीन प्रा वर्णित कर्जदारों / सह–कर्जदारों को मांग सूचना जारी	पाडाा कार्यालयः 1 कब्जे प्रितिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा य प्रस्तावियों के प्रतिग (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2003 का 54) और (2003 का डिमांड ने ब क्स 60 दिनों के भीतर सर हजार एक सौ व से 60 दिनों के भीतर सर्ताक्षरी ने कधित आ (र्ग्) और गारंटर(रों) ते रियम, 2003 क्टूबर 20 (र्र्) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा (र्रा) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा (र्रा) और गारंटर(रों) संपत्ति के साथ किस् का तेनदेन 31.08.2 हा दस लाख छियार ऑफ इंडिया, बी–2, होगा। निर्मित एलआईजी शे –110096, जो विधिवत क्व: 20.10.2020	अंक राष्ट्रा 1 अंग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 वा नोटिस (अचल सम्पा 1 (प्रवर्तन) नियमावली, 2 1 विंग्रे 1 2 रॉफ इंडिया (तिकरण एवम पुनर्निर्माण अ आधिनियम की धारा 13(12) अधिनियम की धारा 13(12) रा पाल सिंह (2) श्री शीश में उल्लिखित देय राशि रु. इकहतर रुपये) का व्याज भुगतान करने की मांग की ग) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने विंग्यम की धारा 13 की उप- म 8 के अंर्तगत उसे प्रदत्त शा 10 को कब्जा प्राप्त कर लिय का ध्यान, आरक्षित संपत्तियो 13 की उप-धारा (8) के प्राव और विशेष रूप से आम ज- ो प्रकार का लेनदेन मत करें 2019 तक नोटिस में उल्लि 1 उत्यत रामपतियों के पि ग के पलैट नंबर 505, भूतल,	of India कार्ग्राहेशुल्ल केर्ग्राहेशुल केर्ग्राहेशुल तेर्यम विद्यार, दिल्ली—110063 तेर्यम वेद्यार, दिल्ली—110063 तेर्ग्रामे के लिये 002 का नियम 8(1)] का अधिकृत अधिकारी होने के नात तेर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय के अंतरेगत उसके सहपठित प्रतिभूति शि पाल सिंह पुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171 / — (केवल दस लास सहित कथित नोटिस की प्रासि व गई है । 1 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा इं है । 2 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है है । 2 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है है । 3 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है ने वो गोटिस दिया जाता है । 1 को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय । 2 को छुड़ाने के लिये उपल्ह्य समय । 2 को छुड़ाने के लिये उपल्ह्य समय । 2 कि ए उपये) पर व्याज सहित यूनिय विहार, दिल्ली—110063 के प्रभार 2 किरप केंडली घरोली, मयूर विहार, फंज—। 1 याल सिंह के स्वामित्व में है ।	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यालव: ए	b) २००४ ४ देवस ईडीसी इंडरिट्रयल (4223 (252348, .com m) के सेबी (सूचीयन वीनयमावली, 2015 म 47 के अनुसरण (निवेशक मंडल (त्रेमही / छमाही ते पर निवेशक मंडल (त्रेमही / छमाही ते पर निवेश पर पर भी वेशी जा नसिल्को लिमिटेड स्रवॉल प्रसरहेरिया (पालन अधिकारी))
अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा उक्त अधिनिय (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के अधीन प्रा वर्णित कर्जदारों ⁄ सह—कर्जदारों को मांग सूचना जारी	गाउटा कार्यालयः 1 कब्जे (प्रतिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा र प्रवर्तना) नियम, 2002 3.2019 तक नोटिस सठ हजार एक सौ व से 60 दिनों के भीतर सराहरी ने कथित अ िप्र, 2013 जोर गारंटर(रों) जोर गारंटर(रों) और गारंटर(रों) व से 60 दिनों के भीतर सराहरी ने कथित अ ियम, 2003 के निय पर 20 अक्टूबर 20 पर (रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा पर (रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा पर (रों) और गारंटर(रों) न संपत्ति के साथ किस् का तेनदेन 31.08.2 जा से इडिया, बी–2, होगा। निर्मित एलआईजी श्रे –110096, जो विधिवत कः 20.10.2020	अंक राष्ट्रा 1 अंग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 वा नोटिस (अचल सम्पा 1 (प्रवर्तन) नियमावली, 2 1 विंग्रे 1 2 रॉफ इंडिया (तिकरण एवम पुनर्निर्माण अ आधिनियम की धारा 13(12) अधिनियम की धारा 13(12) रा पाल सिंह (2) श्री शीश में उल्लिखित देय राशि रु. इकहतर रुपये) का व्याज भुगतान करने की मांग की ग) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने विंग्यम की धारा 13 की उप- म 8 के अंर्तगत उसे प्रदत्त शा 10 को कब्जा प्राप्त कर लिय का ध्यान, आरक्षित संपत्तियो 13 की उप-धारा (8) के प्राव और विशेष रूप से आम ज- ो प्रकार का लेनदेन मत करें 2019 तक नोटिस में उल्लि 1 उत्यत रामपतियों के पि ग के पलैट नंबर 505, भूतल,	of India कार्ग्राहेशुल्ल केर्ग्राहेशुल केर्ग्राहेशुल तेर्यम विद्यार, दिल्ली—110063 तेर्यम वेद्यार, दिल्ली—110063 तेर्ग्रामे के लिये 002 का नियम 8(1)] का अधिकृत अधिकारी होने के नात तेर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय के अंतरेगत उसके सहपठित प्रतिभूति शि पाल सिंह पुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171 / — (केवल दस लास सहित कथित नोटिस की प्रासि व गई है । 1 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा इं है । 2 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है है । 2 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है है । 3 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है ने वो गोटिस दिया जाता है । 1 को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय । 2 को छुड़ाने के लिये उपल्ह्य समय । 2 को छुड़ाने के लिये उपल्ह्य समय । 2 कि ए उपये) पर व्याज सहित यूनिय विहार, दिल्ली—110063 के प्रभार 2 किरप केंडली घरोली, मयूर विहार, फंज—। 1 याल सिंह के स्वामित्व में है ।	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यालव: ए	b) 5000000000000000000000000000000000000
वर्णित कर्जदारों ⁄ सह–कर्जदारों को मांग सूचना जारी	गाउंग कार्यालयः 1 किन्ने प्रितिमूति हित अधोहस्ताक्षरी द्वारा र प्रवर्ताना नियम, 2002 9.2019 को डिमांड ने 1 कुमार सुपुत्र श्री शी 8.2019 तक नोटिस स्पठ हजार एक सौ व से 60 दिनों के भीतर स्पर्(गे) और गारंटर(रों (गर(रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा पर 20 अक्टूबर 20 पार(रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा पर 20 आक्टूबर 20 पार(रों) और गारंटर(रों) न संपत्ति के साथ किर्स का लेनदेन 31.08.2 का सेनदेन 31.08.2 का लेनदेन 31.08.2 हा होगा। होगा।	अंक राष्ट्रा 1 अंग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 वा नोटिस (अचल सम्पा 1 (प्रवर्तन) नियमावली, 2 1 विंग्रे 1 2 रॉफ इंडिया (तिकरण एवम पुनर्निर्माण अ आधिनियम की धारा 13(12) अधिनियम की धारा 13(12) रा पाल सिंह (2) श्री शीश में उल्लिखित देय राशि रु. इकहतर रुपये) का व्याज भुगतान करने की मांग की ग) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने विंग्यम की धारा 13 की उप- म 8 के अंर्तगत उसे प्रदत्त शा 10 को कब्जा प्राप्त कर लिय का ध्यान, आरक्षित संपत्तियो 13 की उप-धारा (8) के प्राव और विशेष रूप से आम ज- ो प्रकार का लेनदेन मत करें 2019 तक नोटिस में उल्लि 1 उत्यत रामपतियों के पि ग के पलैट नंबर 505, भूतल,	of India कार्ग्राहेशुल्ल केर्ग्राहेशुल केर्ग्राहेशुल तेर्यम विद्यार, दिल्ली—110063 तेर्यम वेद्यार, दिल्ली—110063 तेर्ग्रामे के लिये 002 का नियम 8(1)] का अधिकृत अधिकारी होने के नात तेर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय के अंतरेगत उसके सहपठित प्रतिभूति शि पाल सिंह पुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171 / — (केवल दस लास सहित कथित नोटिस की प्रासि व गई है । 1 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा इं है । 2 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है है । 2 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है है । 3 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है ने वो गोटिस दिया जाता है । 1 को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय । 2 को छुड़ाने के लिये उपल्ह्य समय । 2 को छुड़ाने के लिये उपल्ह्य समय । 2 कि ए उपये) पर व्याज सहित यूनिय विहार, दिल्ली—110063 के प्रभार 2 किरप केंडली घरोली, मयूर विहार, फंज—। 1 याल सिंह के स्वामित्व में है ।	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यालय: e-5, यूपीएसआ, एसटेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन: 09837923893, फैक्स : (0 इं–नेल आईडी: Insito@evonik वेबसाइट : www.insitoCondia.com स् सूचना त कं विनियम 33 कं साथ पठित विनिय के विनियम 33 के साथ पठित विनिय के विनियम 1 की लेखापरीक्षा समिति औ की एक बैठक सोमवार, 02 नयमब, 2 ने विषि : अक्ट्रीयर्स, 26, 2020 स्थान : नई दिल्ही त (कम्पनी संविब और अन् त (कम्पनी संविब और अन् त (कम्पनी संविब और अन् त (कम्पनी संविब और अन् त (कम्पनी संविव और अन्त्र क्र अधीन निगमित (प प्र पुनर्निर्माण चार्ट की धारा 3 के अ अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त	b) 000000000000000000000000000000000000
पाणरा फणपारा / राह—फणपारा फो मोगे सूचमी जोरी	गाउटा कार्यालयः 1 कब्जे (प्रतिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा र प्रवर्तना) नियम, 2002 3.2019 तक नोटिस सठ हजार एक सौ व से 60 दिनों के भीतर सराहरी ने कथित अ िप्र, 2013 जोर गारंटर(रों) जोर गारंटर(रों) और गारंटर(रों) व से 60 दिनों के भीतर सराहरी ने कथित अ ियम, 2003 के निय पर 20 अक्टूबर 20 पर (रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा पर (रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा पर (रों) और गारंटर(रों) न संपत्ति के साथ किस् का तेनदेन 31.08.2 जा से इडिया, बी–2, होगा। निर्मित एलआईजी श्रे –110096, जो विधिवत कः 20.10.2020	अंक राष्ट्रा 1 अंग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 वा नोटिस (अचल सम्पा 1 (प्रवर्तन) नियमावली, 2 1 विंग्रे 1 2 रॉफ इंडिया (तिकरण एवम पुनर्निर्माण अ आधिनियम की धारा 13(12) अधिनियम की धारा 13(12) रा पाल सिंह (2) श्री शीश में उल्लिखित देय राशि रु. इकहतर रुपये) का व्याज भुगतान करने की मांग की ग) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने विंग्यम की धारा 13 की उप- म 8 के अंर्तगत उसे प्रदत्त शा 10 को कब्जा प्राप्त कर लिय का ध्यान, आरक्षित संपत्तियो 13 की उप-धारा (8) के प्राव और विशेष रूप से आम ज- ो प्रकार का लेनदेन मत करें 2019 तक नोटिस में उल्लि 1 उत्यत रामपतियों के पि ग के पलैट नंबर 505, भूतल,	of India कार्ग्राहेशुल्ल केर्ग्राहेशुल केर्ग्राहेशुल तेर्यम विद्यार, दिल्ली—110063 तेर्यम वेद्यार, दिल्ली—110063 तेर्ग्रामे के लिये 002 का नियम 8(1)] का अधिकृत अधिकारी होने के नात तेर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय के अंतरेगत उसके सहपठित प्रतिभूति शि पाल सिंह पुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171 / — (केवल दस लास सहित कथित नोटिस की प्रासि व गई है । 1 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा इं है । 2 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है है । 2 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है है । 3 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है ने वो गोटिस दिया जाता है । 1 को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय । 2 को छुड़ाने के लिये उपल्ह्य समय । 2 को छुड़ाने के लिये उपल्ह्य समय । 2 कि ए उपये) पर व्याज सहित यूनिय विहार, दिल्ली—110063 के प्रभार 2 किरप केंडली घरोली, मयूर विहार, फंज—। 1 याल सिंह के स्वामित्व में है ।	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातवा: e-o. यूपीएसआ, एसटेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन : 09837923893, फैक्स : (0 इं–नेल आईडी : Insito@evonik वेबसाइट : www.insitoCoindia.com स्वाचा प्रतद्वारा सूचना दी जाती है वि अनिवार्यतारं एवं प्रकटीकरण अरेखाएं) ते कं विनियम 33 के साथ पठित विनियम कं कं विनियम 33 के साथ पठित विनियम के की पर्क बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 20 ती साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त हे वु अलेखापरीक्षित बित्तीय परिणम ब आनिवर्ध्वापरीक्षित बित्तीय परिणम को के एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 20 ती साथ 30 सितम्बर, 26, 2020 स्वान : नई दित्ली त (कम्पनी संचिव और अन् त (कम्पनी संचिव कोर कर्म ज त्या क्यात्र के सार क्या क्यात्र के स्वान के के सिहा क्या के क्या की क्या क्या के की क्या क्या के क्या की का का क्या की की क्या का क्या की की का का क्या की की का का का का की की का का का का को की की का का का का का की की का	p) ठा
ानल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष उस पर आगे ब्याज के साथ सूचना की तिथि से 60 वि	पाडाा कार्यालयः 1 कब्जे प्रितिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा य प्रस्तावियों के प्रतिग (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2003 का 54) और (2003 का डिमांड ने ब क्स 60 दिनों के भीतर सर हजार एक सौ व से 60 दिनों के भीतर सर्ताक्षरी ने कधित आ (र्ग्) और गारंटर(रों) ते रियम, 2003 क्टूबर 20 (र्र्) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा (र्रा) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा (र्रा) और गारंटर(रों) संपत्ति के साथ किस् का तेनदेन 31.08.2 हा दस लाख छियार ऑफ इंडिया, बी–2, होगा। निर्मित एलआईजी शे –110096, जो विधिवत क्व: 20.10.2020	अंक राष्ट्रा 1 अंग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 अग्रे 1 वा नोटिस (अचल सम्पा 1 (प्रवर्तन) नियमावली, 2 1 विंग्रे 1 2 रॉफ इंडिया (तिकरण एवम पुनर्निर्माण अ आधिनियम की धारा 13(12) अधिनियम की धारा 13(12) रा पाल सिंह (2) श्री शीश में उल्लिखित देय राशि रु. इकहतर रुपये) का व्याज भुगतान करने की मांग की ग) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने) देय राशि का भुगतान करने विंग्यम की धारा 13 की उप- म 8 के अंर्तगत उसे प्रदत्त शा 10 को कब्जा प्राप्त कर लिय का ध्यान, आरक्षित संपत्तियो 13 की उप-धारा (8) के प्राव और विशेष रूप से आम ज- ो प्रकार का लेनदेन मत करें 2019 तक नोटिस में उल्लि 1 उत्यत रामपतियों के पि ग के पलैट नंबर 505, भूतल,	of India कार्ग्राहेशुल्ल केर्ग्राहेशुल केर्ग्राहेशुल तेर्यम विद्यार, दिल्ली—110063 तेर्यम वेद्यार, दिल्ली—110063 तेर्ग्रामे के लिये 002 का नियम 8(1)] का अधिकृत अधिकारी होने के नात तेर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय के अंतरेगत उसके सहपठित प्रतिभूति शि पाल सिंह पुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171 / — (केवल दस लास सहित कथित नोटिस की प्रासि व गई है । 1 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा इं है । 2 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है है । 2 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है है । 3 में विफल रहे हैं, इसलिये एतद्दा है ने वो गोटिस दिया जाता है । 1 को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय । 2 को छुड़ाने के लिये उपल्ह्य समय । 2 को छुड़ाने के लिये उपल्ह्य समय । 2 कि ए उपये) पर व्याज सहित यूनिय विहार, दिल्ली—110063 के प्रभार 2 किरप केंडली घरोली, मयूर विहार, फंज—। 1 याल सिंह के स्वामित्व में है ।	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP198BPLC010141 पंजी, कार्यातवा: e-o. यूपीएसआः एसटेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन : 09837923893, फैक्स : (0 इं–मेल आईडी : Insito@evonik वेबसाइट : www.insitocometacometa स. उनिवार्य्यार सूचना दी जाती है वि अनिवार्य्यार सूचना दी जाती है वि त के विनियम 33 के साथ पठित विनियम के के विनियम 33 के साथ पठित विनियम के विनेयम 33 के साथ पठित विनियम के विनेयम 33 के साथ पठित विनियम के विनेयम 30 सेताय्य, 2020 को समाप्त हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम बा आनेलंखबद्ध करने हेतु आयोजित की श्री साथ 30 सिताय्य, 2020 को समाप्त हेते यह सूखना क रूपनी की साथ 30 सिताय्य, 2020 को समाप्त के तिथि : अक्ट्रबर, 26, 2020 रबान : क रे स्वान : क दिली त (कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित ए एव पुनर्निर्माण चार्ट की धारा 3 के अध अधिकारी ने विभिन्न बैंको से ऋण प्रात्य वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय उ अधिकारी ने विभिन्न बैंको से ऋण प्रात्य वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय उ	p) २००००००००००००००००००००००००००००००००००००
कंपनी आवेदन सं. ND/C.A.(CAA)/8/2020	गाउटा कार्यालयः भी किन्नो (भूतिमूति हिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा र (2002 का 54) और (2002 का 54) और उद्यान के जीतर स्व हजार एक सी ब से 60 दिनों के भीतर स्व हजार एक सी ब से 60 दिनों के भीतर स्व हजार एक सी ब से 60 दिनों के भीतर स्व हजार एक नी दिस (रों) और गारंटर(रों) सं वियम, 2002 के निय (रों) और गारंटर(रों) सं वादेगे ने कथित आ व त्वेय तारंटर(रों) सं संपत्ति के साथ किर्स का तेनदेन 31.08.2 न दस लाख छियार ऑफ इंडिया, बी–2, होर्गग। होर्गित एलआईजी श्रे (नारंटर) होर्टली	भोक रोग	of India कार्णदेशका स्विम दिहार, दिल्सी—110063 तियों के लिये) 002 का नियम 8(1)} का अधिकृत अधिकारी होने के नात गौर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनेया के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिभूति शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनां और गारंटर(रों) जिनके नाम, (1) श्र पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व याक सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171/— (केवल दस लाग सहित कथित नोटिस की प्राप्ति व र्छ है। ने में विफल रहे हैं, इसलिये एतदद्वा न्वता को नोटिस दिया जाता है, ति- धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि क्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि है। है। को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय 1 खित देय राशि रु. 10,66,171// ए रुपये) पर व्याज सहित यूनिय विहार, दिल्ली—110063 के प्रभार : विदरण कॉडली घरोली, मयूर विहार, फेज—। याल सिंह के स्वामित्व में है। अधिकृत अधिकृत यूनियन बैंक ऑफ इंडिस	(A Member of Evonik industrise Group, CIN: 134102UP1988PLC010141 पंजी, कार्यातवा: e-o. यूपीएसआ एसटेट, भारतीयग्राम, गजरोला–24 फोन : 09837923893, फैक्स : (0 इं–नेल आईडी : Insito@evonik वे बाहाइट : www.insitoCoindia.com स्वचाग एतदद्वारा सूचना दी जाती है वि अनिवार्यतारं एवं प्रकटीकरण अरेखाएं) ते कं विनियम 33 के साथ पठित विनियम कं वित्र स्वाप्य स्वाप्य से क्यापरीक्षा सामिति औ ते एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2020 के समाप्त हे उलेख्यापरीक्षित बित्ताय परिणम वा आनिलंखबद्ध करने हेतु आयोजित की श्र स. सूचना क रूपनी कं भूष्ट स्वाय : अक्यूबर, 26, 2020 स्थान : नई दित्ली त (कम्पनी संचिव और अन् त व प्रित्त क्या खातों के संबंध में वित्तीय : अधीकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय : अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा : (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 वर्णित कर्जदारों / सह–कर्जदारों को मं	b) स्वार्थ प्रदेश इंडीसी इंडरिंट्रयल 4223 59524) 252348, 50924) 252348, com n के संबी (सुवीयन वेनियमावली, 2015 म 47 के अनुसरण पि निदेशक मंडल 2020 को, अन्य के तिमाही/ एछनाही ते य ला इ ट वे स्टोक एक्सचेज अट के स्टोक एक्सचेज गर भी देखी जा नविराज कि लिमिटेड हरता, /- स्वाति सुरहेतिया, एगलन अविकगरी) श्रेतिमूतिकरण एवं पु इंडिया) लिमिटेड (इस क प्रतिमूतिकरण एवं पु उक्त अधिनगरी इंडिया हे और जबकि 2 उक्त अधिनियम की ध के अधीन प्राप्त शकि इन अधीनिय म की ध
कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम और लागू प्रावधानों के साथ पतित धारा 230–232 के मामले में सं. ऋण खाता संख्या	पादधा कार्यालयः भी कब्जे (भूतिभूति हि अधोहस्ताक्षरी द्वारा र (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2002 का 54) और (2003 का डिमांड ने 1 कुमार सुपुत्र श्री शी 3.2019 तक नीटिस स्र के 60 दिनों के भीतर सर क कार पक सी 1 नियम, 2002 के निय (पर 20 अक्टूबर 20 (पर(रों) और गारंटर(रों संपत्ति के साथ किस (पर 20 अक्टूबर 20 (पर(रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा (पर 20 अक्टूबर 20 (पर(रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा (पर 20 अक्टूबर 20 (पर(रों) और गारंटर(रों) में अधिनियम की धारा (पर 20 अक्टूबर 20 (पर 20 अक्टूबर 20 (पर 20 अक्टूबर 20 (पर 20 अक्टूबर 20 (पर 20) के नियद (पर 20) के नियन (पर 20) के नियन (पर) के नियन के पर) (पर 20) के नियन (पर) के नियन के नियन के पर) (पर) (पर) (पर) (पर) (पर) (पर) (पर) (अंक राष्ट्र 	of India स्वम् दिहार, दिल्ली–110063 स्वम् दिहार, दिल्ली–110063 स्वम् दिहार, दिल्ली-110063 स्वम् देहार, दिल्ली के समसद (दुर्वा) के लिये का अधिकृत अधिकारी होने के नात तोर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिया के अंतंगत उसके सहणवित प्रतिभू शक्तियां का प्रयोग करते हुए दिनां और गारंटर(रों) जिनके नाम. (1) श्र पाल सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह व 10,66,171/- (केवल दस लाग सहित कथित नोटिस कि प्राप्ति व इं है । ते में विफल रहे हैं, इसलिये एतवृद्धा न्यारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हि तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि हो वो छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय : धानों पर आमंत्रित किया जाता है । को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय : धानों पर आमंत्रित किया जाता है व नेता को नावधान किया जाता है वि तिर्वे देय राशि रु. 10,66,171 / रह रुपये) पर ब्याज सहित यूनिय विहार, दिल्ली–110063 के प्रमार : बिस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिय बेंच, नई दिल्ली के समस् (CAA)/8/2020	(A Member of Evonik industries Group, CIN: L34102UP1988PLC010141 पजी. कार्यातवा: e-s. यूपीएसआः एस्टेट, भारतीयग्राम, राजरोला–24 फोन : 09837923893, फैक्स : (0 डू-मेल आईडी: Inisloc@evonik वेबसाइट : www.insilcoindia.com प्र स्वन्ता दी जाती है वि म, उन्दिवारा स्वन्त दी जाती है वि म, उन्दिवारा स्वन्त दी जाती है वि म, उन्दिवारा स्वन्त दी जाती है वि क के की विनयम 33 के साथ पठित विनिया क के की एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2 मी साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त हेतु अन्वेजवापरीक्षित वित्तीया परिणाम की एक बैठक सोमवार, 02 नवम्बर, 2 की स्वराह्य खग्द रह, 2020 के समाप्त की वेबसाइट www.bseindia.com प सकती है । बार्स इन् कि वे वे ति	b) स्वार्थ प्रदेश इंडीसी इंडरिंट्रयल 4223 59524) 252348, 50000 50000 n afrituriación, 2015 1 47 के अनुसरण 1 पि निदेशक मंडल 2020 की, अन्य के तिमाही/ / छमाही तो गय तिवार एवं जाएगी। 1 वे बसा इ ट वे स्टोक एक्सकेज मंडल अटोक स्वर्गके लिमिटेड हरता, गय के तिमिटेड तमा वे खेरी जा नविराह के लिमिटेड इरटोक एक्सकेज स्वाति सुरहेतिया, (पालन अधिकगरी) इंडिया) जिमा है और जबकि 2 इक्त अधिन या के और जबकि 2 इक्त अधिन या के थी, तिमियम की ध के अधीन या म की धी, तिथि से 60 दिन के 4 गएयुर्द नहीं की ज

क्र.	कर्जदार का नाम/सह–कर्जदार का नाम/	कुल बकाया राशि (रू. में)/
सं.	ऋण खाता संख्या	नियत तिथि
1	हेमंत कुमार पनयान / रेखा/	



करनी तय की गई है।



बेहतर बिज़नेस वो, जो आपकी भाषा में हो

मांग सूचना
रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (इसमें आगे "आर्सिल" कही गई है), जो
म के अधीन निगमित एक प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण कम्पनी है तथा प्रतिभूतिकरण
वार्ट की धारा 3 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत है, के प्राधिकृत
भेन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और जबकि आर्सिल नीचे वर्णित चार्ट के कालम 2 में
तों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का धारक है और जबकि आर्सिल ने, अधिनियम के
केडिटर के रूप में तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित
वली, 2002 के नियम 2 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कालम 2 में
/ सह—कर्जदारों को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उनसे सूचनाओं में वर्णित राशि
ाज के साथ सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी, परंतु



आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

कारपोरेट कार्यालय : सी-40. सेक्टर 59. नौयडा, जिला गौतम बुध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 307

दरभाष : +91 120 4303500; फैक्स : +91 120 4082699 वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsil@rsystems.com

(कार निरुद्धर २ इंटरनेशनल निर्णाहण निर्णाहण (कारपोरेट पहचान संख्याः L74899DL1993PLC053579) SYSTEMS पंजीकृत कार्यालयः जीएफ- 1- ए, 6, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019 कारणपेत्र कार्यालयः जी था, जोवरा 50, जोवरा 40, व्याप्त उत्पन्न वर्णियणः 201

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (लिस्टिंग ओबलिगेशनस एण्ड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस) विनियमन, 2015 के नियम 29, 33 साथ में पठित

नियम 47 एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुसरण में सुचना प्रदान की जाती है कि सितम्बर 30, 2020 को समाप्त कम्पनी के तिमाही

एवं नौमाही अंकेक्षित एकीकृत वित्तीय परिणामों एवं अनअंकेक्षित संगठित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार एवं

स्वीकृत करने हेतु कम्पनी के निदेशकों के मंडल की वर्ष 2020 की पाचवीं बैठक मंगलवार, दिनांक नवम्बर 03, 2020 को आयोजित

मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइटस, प्रथम तल, प्लॉट नंबर NH-2, C–1 ब्लॉक, LSC, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली –110058, दूरभाषः 011–41410592/93/94, टेलीफैक्सः 011–41410591, ईमेलः delhi@linkintime.co.in कृते पर्ल ग्लोबल इंडस्टीज लिमिटेड

स्थान : गुरूग्राम हस्ता. / -दिनांक : 26 अक्टूबर 2020 (कम्पनी सचिव)

बैंक ऑफ बड़ीदा, (पूर्व में विजया बैंक) जेडओएसएआरबी, नई दिल्ली 13वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

अग्नि डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक हस्तांतरी कंपनी) के साथ पायोनियर फायर प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के मध्य एकीकरण योजना के मामले में

साथ पठित धारा 230–232 के मामले में

सूचना और लेनदारों और सदस्यों की सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) के प्रिंसिपल बेंचे नई दिल्ली ने दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के एक आदेश द्वारा अग्नि डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक हस्तोंतरी कंपनी) और पायोनियर फायर प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के मध्य प्रस्तावित एकीकरण योजना पर विचार करने के उद्देश्य से, और सही समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदित करने हेतु आवेदक कंपनियों के लेनदारों (सुरक्षित और असुरक्षित) और इंक्विटी शेयरधारकों के बैठक का आयोजन का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में और उसमें निर्देशित अनुसार एतदद्वारा आगे सूचित किया जाता है कि अग्नि डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों, असुरक्षित लेनदारों और सूरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठक निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित की जॉयेगी। उक्त इक्विटी शेयरधारकों, असुरक्षित लेनदारों और सुरक्षित लेनदारों से निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

क्रम सं.	बैठक का वर्ग	बैठक का दिन / तिथि	समय (भामास)	बैठक का स्थान
1.	इक्विटी शेयरधारक	शक्रवार	पूर्वा. 11:30 बजे	ए-48, डीडीए केशोपुर
2.	सुरक्षित लेनदार	27 नवंबर,	अप.12:30 बजे	इंडस्ट्रियल एरिया
3.	असुरक्षित लेनदार		अप. 3:30 बजे	विकासपुरी, नई दिल्ली पश्चिम–110018

उक्त आदेश के अनुपालन में और उसमें निर्देशित अनुसार एतद्द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि पायोनियर फायर प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों की अलग–अलग बैठक निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेँगी। उक्त इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों से निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

क्रम सं.	बैठक का वर्ग	बैठक का दिन ∕ तिथि	समय (भामास)	बैठक का स्थान
1.	इक्विटी शेयरधारक	शुक्रवार 27 नवंबर,	पूर्वा. 9:30 बजे	इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स,
2.	असुरक्षित लेनदार	2020	अप. 2:30 बजे	तिलक विहार, तिलक नगर दिल्ली—110018

उक्त एकीकरण योजना और कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम और लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230–232 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां आवेदक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेसर्स टीयू एंड को. के कार्यालय ई–1, चौथी मंजिल, प्रशान्त विहार, रोहिणी सेक्टर–14, दिल्ली–110085 से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या पोस्टल बैलेट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं बशर्ते सभी प्रॉक्सीज निर्धारित प्रपत्र में कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय में बैठक से कम से कम 48 घंटा पहले जमा किया जाना चाहिये।

सूचना के साथ भी प्रॉक्सी प्रपत्र संलग्न है। इसे आवेदक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है या कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.agnidevices.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

ट्राइब्यूनल ने चेयरमैन, वैकल्पिक चेयरमैन, संवीक्षक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में कंपनी ने उपरोक्त सभी बैठकों के लिए श्री अनिल कुमार जैन (अधिवक्ता) और उनके असफल रहने पर श्री ऋषभ जैन (अधिवक्ता) को चेयरमैन और श्री नमन जैन (अधिवक्ता) को संवीक्षक नियुक्त किया है।

उपरोक्त एकीकरण की योजना, यदि बैठक में अनुमोदित होती है तो ट्राइब्यूनल के अनुमोदन के अधीन होगा। शी अनिज कमार जैर

	त्रा आनल कुमार जन
दिनांक : 25.10.2020	(अधिवक्ता)
स्थान : दिल्ली	बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

L		एसएयएलएयएजाआरए0000109	15-09-20				
l	प्रतिभूत सम्पत्ति का पता : मिंजुमला खसरा नंबर 370 / 1 पर स्थित, बांके, आनंद नगर, मौजा खटेना, लोहा						
l	मंडी, तहसील और जिला– आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 167.22 वर्ग मीटर। चौहददी : पूर्व : रास्ता और						
l	स्ट्री	स्ट्रीट चौड़ी 2.44 वर्ग मीटर, पश्चिम : अल्ताफ आलम का प्लॉट, उत्तर : बाल्मीकि जी का घर, दक्षिण : अनिल					
	का घर						
l	2	मोहम्मद रफी 🖊 सरवारी बेगम/	. 45,28,412.57/-				
l		एसएचएलएमईआरटी0000098	15-09-20				

प्रतिभूत सम्पत्ति का पता : हाउस नंबर 2918 / ए खसरा नंबर 3600 अनाज मंडी जाकिर हुसैन कॉलोनी मेरठ शहर–मेरठ, राज्य–यूपी, पिनकोड : 250002 | 83.61 वर्ग मीटर | पूर्व : 50 फीट तत्पश्चात विक्रेता का प्लॉट पश्चिम : 50 फीट तत्पश्चात खदीजा पत्नी इस्लामुद्दीन का प्लॉट, उत्तर : 18 फीट तत्पश्चात रास्ता 20 फीट, दक्षिण : 18 फीट तत्पश्चात संपत्ति गुड्डी गलास वाले ।

3	कुंवर वीरेंदर विक्रम / संतोष रानी / विक्रम इंटरप्राइजेज /	रु. 3,89,85,219.99/-		
	नागेंद्र / डीआरएसटीएनओआई00401740 / 25-09-20			
	डीआरबीएलएनओआई00401741			

प्रितिभूत सम्पत्ति का पता : खाता संख्या १३८ का भाग, खसरा नंबर ५७५, ग्राम—सादोपुर, परगना और तहसील रादरी, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201307 श्री नागेन्द्र के नाम पर। माप 1813.00 वर्ग मीटर है। सीमाबद्ध : पूर्व : खसरा नंबर 575 का शेष भाग, पश्चिम : रोड खसरा नं 571, उत्तर : खसरा नं 572 का हिस्सा, दक्षिण : चक मार्ग खसरा नं 76

4	आकाश इंटरप्राइजेज थू गीता अग्रवाल / गीता अग्रवाल /	रू. 11,07,948.97/-				
	संजीव अग्रवाल / 18342600000107	12-09-20				
प्रतिभूत सम्पत्ति का पता : प्रापॅटी नंबर 453 (नया नंबर 812)(शॉप ऑन ग्राउंड फ्लोर विद रूफ राइट्स) गली						
नंबर	नंबर 5, मोहल्ला पुरवा इस्माइल खान, तुरब नगर मार्केट गाजिदाबाद, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 201001 । क्षेत्रफल					
23.2	3.22 वर्ग । चौहदर्दी : पर्व : सडक, पश्चिम : जीना, उत्तर : प्रोपटी का हिस्सा, दक्षिण : गैलीरी वाइड 4 फीट ।					

23.22 वर्ग चाहद्दी : पूर्व : सड़क, पश्चिम : जाना, उत्तर : प्रापटी को हिस्सी, दक्षिण : गलारी वाइड 4 फाट					
5	शेखर सिंह / प्रतिभा सिंह / माया सिंह	रु. 1,20,53,332.86/-			
	एचएचओएमएनओआई00053955 और	25-09-20			

एचएचओएमएनओआई00053957 प्रतिमृत सम्पत्ति का पता : आवासीय फ्रीहोल्ड प्लॉट नंबर जे–14. खसरा नंबर 1165. विकास सहकारी संस्थ समिति लिमिटेड, बरौला कॉलोनी में शताब्दी एन्क्लेव, विलेज बरोला, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर माया सिंह के नाम में। माप 83.05 वर्ग मीटर गज। चौहद्दी : पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : सड़क, उत्तर : ान्स का प्लॉट टक्षिण · प्लॉट नंबर जे—13

л °		
6	सत्य नारायण मीणा / सुनीता मीणा /	रु. 36,33,474.96
	401डीएचएल36711397 और 401डीएचएल34411292	31-08-20
,	पत्र समाहित का मना : सेनिमी आसमीम सोन्टन निज्ली	ਸੇ ਜਿਆਰ ਗੀਆ ਰਹਾ ਦਸੱਲ ਤੀ

प्रतिभूत सम्पत्ति का पता : पॉकेटे–1, सेक्टर–18 पर डीडीए एलआईजी फ्लैट नंबर – 18 । सत्य नारायण मीणा और सुनीता मीणा के नाम पर । क्षेत्रफल (प्लिंथ) 42 वर्ग मीटर ।

'	ललित कुकरेजा /रीमा वर्मा/एचएचओएमडीईएल00036436	रु. 97,49,660.91/-
	ँ और एचएचओएमडीईएल00049549	10-09-20

प्रतिभत सम्पत्ति का पता : श्री ललित के नाम पर हाउस नंबर 3एच / 116, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाप 100100 के 91.15 वर्ग गज के हिस्से वाला भाग। चौहद्दी : उत्तर : 3एच / 116 का कॉमन पैसेज भाग और हाउस 3एच / 115 से, दक्षिण : हाउस 3एच / 117, पूर्व : शेष भाग 3एच / 116, पश्चिम : शेष भाग 3एच / 116

महि		साक्षी रानी / 342300	ক.	16,12,018.06/- 31-08-20

प्रतिभूत सम्पत्ति का पताः हाउस नंबर 2/16 वाका आबादी गुरूनानपुरा आबादी काचा केंप, बाबा बोघराज मंदिर के पास, तहसील और जिला पानीपत, राज्य–हरियाणा, पिनकोड : 132103 । चौहद्दी : उत्तर : संपत्ति का हिस्सा नं 2 / 16, दक्षिण ः सोमनाथ की संपत्ति , पूर्व ः सड़क, पश्चिम ः चमन लाल की संपत्ति ।

अतएव कालम नंबर 2 में वर्णित कर्जदारों / सह–कर्जदारों को सूचना दी जाती है तथा कालम 3 में संबंधित कर्जदार∕सह–कर्जदार के सामने दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान, इस सूचना के 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, क्योंकि उक्त राशि कालम नंबर 3 में दर्शित तिथि को संबंधित ऋण खातों के संबंध में देय पाई गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कुल राशि भूगतान की तिथि तक आगे ब्याज और और अन्य राशियों, जो देय हो सकती हैं, के सहित नहीं चुकाए जाने की स्थिति में आर्सिल उपरिवर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतुं उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। अधिनियम और तदधीन विरचित नियमों के अधीन निर्धारित अन्य विधियों से सूचना प्रदान करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।



नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति के अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों** को **निम्नाकित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था** जिसमें उल्लेखित **राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार और गांरटर उक्त राशि का मुनतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित** के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जवार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ बड़ौदा**, जेडओएसएआरबी, 13वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 **के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्च, लागत, प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

चल⁄अचल सम्पत्तियों काँ विवरण

कर्जदार∕गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
उधारकर्ताः मैसर्स देवऋषि फूड्स प्रा. लि. निदेशक ∕ गारंटर 1. श्री विपिन जैन, 2. श्री निखिल जैन गांरटरः 1. श्री राजीव जैन, 2. श्रीमती अंजलि जैन 3. श्री विकास सचदेवा 4. श्रीमती शालिनी सचदेवा 5. श्री सुलेख चंद जैन	(1) सम्पत्ति पर मालिकाना : श्री विकास सचदेवा और श्रीमती शलिनी सचदेवा सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अपार्टमेंट नं. पी–3–ए–027, क्षेत्रफल 91.22 वर्ग मी, विंग ए, द्वितीय तल, टॉवर नं. पी–3–ए, डीएलएफ सिटी फेज–V, गुरूग्राम, (हरियाणा) में स्थित (2) सम्पत्ति पर मालिकाना : श्री रजीव जैन सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अपार्टमेंट नं. पी–3–बी–015, क्षेत्रफल 107.15 वर्ग मी, विंग बी, प्रथम तल, डीएलएफ सिटी फेज–V, प्रिंसटॉन ईस्टेट गुरूग्राम, (हरियाणा) में स्थित	05-05-2018 23-10-2020	रू. 6,38,90,294.57 दिनांक 30.04.2018 तक और संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार और खर्में
दिनांक : 23.10.2020, स्थान : गुरूग्राम		प्राधिकृत अधि	विकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

ReLI∕\NCe	HOME FINANCE	रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शाखा कार्यालय : छठा तल, सिनर्जी टावर,, ए-1/13, ब्लॉक-ए, सेक्टर-62, नोएडा–201301 पंजीकृत कार्यालय – 11वां तल, द रूबी, प्लॉट नं. 29, रूबी मिल्स् कम्पाउंड, सेनापती बापत मार्ग, दावर वैस्ट, मुंबई – 400028
	-	

कब्जा सूचना नियम–8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / सह–कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाय राशि उक्त नोंटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदारों / सह–कर्जदारों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा कर्जदारों / सह–कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

कर्जदारों / सह–कर्जदारों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न क तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार⁄सह– कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि
1	1) नूरजी नवास, 2) नौफाल नवास	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं.। 603, छठा तल, टॉपर । जेएम फ्लोरेंस, प्लॉट नं. डीवी—जीएच—09सी, सैक्टर टैक ज़ोन—IV, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) नोएडा-201301 में स्थित	10 फरवरी 2020 23 अक्टूबर 2020	रु. 29,20,008/- (रु. उनतीस लाख बीस हजा आठ मात्र) दिनांक 10.02.2020 तक हेतु लोग खाता नं. RHHLDEL000031426
2	1) सीमा शर्मा 2) रघुवंश शर्मा	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि यूनिट नं. R001CY12004 फ्लैट नं. 2004, सियाना टॉवर, 19वां तल, प्लॉट नं. 4, सैक्टर—93—ए, सुपरटेक ईमेराल्ड कोर्ट, एक्सप्रेसवे नोएडा, यू.पी. 201304 में स्थित	29 जनवरी 2020 23 अक्टूबर 2020	रु. 26,86,615/- (रु. छब्बीस लाख छियार्स हजार छः सौ पद्रंह मात्र) दिनांक 28.01.202 तक हेतु लोन खाता नं. RHHLDEL000011878
3	1) हरप्रीत सिंह 2) तेजिंदर कौर 3) इन्फिनिटी होम्स 4) दीक्षा कौर	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट प्लॉट नं. डी–9, ब्लॉक–डी, सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के. महारानी बाग, सीएचबीएस लि., जिसे अब एएस3 पार्क ऐवेन्यू कहते है, महारानी बाग, नई दिल्ली–110065 में स्थित	30 अक्टूबर 2019 23 अक्टूबर 2020	रु. 1,87,21,707/- (रु. एक करोड़ सत्तार लाख इक्कीस हजार सात सौ सात माट दिनांक 18.10.2019 तक हेतु लोन खाता र RHHLDEL000017580
4	1) मोह. अफज़ल 2) अलिशा खातून	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. एसएफ–2, द्वितीय तल, एलएचएस के पीछे, प्लॉट नं. सी–5 एसएलएफ वेद विहार, गाँव सदुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद–201102 में स्थित	05 मार्च 2020 23 अक्टूबर 2020	रु. 12,38,083/- (रु. बारह लाख अडतीस हज तिरासी मात्र) दिनांक 05.03.2020 तक हे लोन खाता नं. RHAHDEL000057297
कर्जदारों / सह—कर्जदारों / बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।				
	ांकितः 24 अक्टूब नःदिल्ली∕नोएड			हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटे